


Glossary

High School Level

Living Environment Glossary

English / Hindi



Translation of Living Environment terms
based on the Coursework for Living
Environment Grades 9 to 12.

Word-for-word glossaries are used for testing
accommodations for ELL/LEP students



THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

Last Updated: July 2016



THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

P-16

Office of Elementary, Middle, Secondary and Continuing Education and Office of Higher Education
Office of Bilingual Education and Foreign Language Studies
<http://www.emsc.nysesd.gov/biling/>

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
Regents of the University

| | |
|--|-----------------|
| BETTY A. ROSA, <i>Chancellor</i> , B.A., M.S. in Ed., M.S. in Ed., M.Ed., Ed.D. | Bronx |
| T. ANDREW BROWN, <i>Vice Chancellor</i> , B.A., J.D. | Syracuse |
| NAN EILEEN MEAD, B.A. | Manhattan |
| JOSEPHINE VICTORIA FINN, B.A., J.D. | Albany |
| BEVERLY L. OUDERKIRK, B.S., M.S. | Saratoga |
| ELIZABETH. S. HAKANSON | Onondaga |
| CATHERINE COLLINS, B.S., M.S., Ph.D. | West New York |
| JAMES R. TALLON, R., B.A., M.A. | Binghamton |
| ROGER TILLES, B.A., J.D. | Great Neck |
| JUDITH JOHNSON, B.A., M.A., Ed.D. | Mid-Hudson |
| LUIS O. REYES, B.A., M.A., Ph.D. | New York |
| LESTER W. YOUNG, JR., B.S., M.S., Ed. D. | Oakland Gardens |
| CHRISTINE D. CEA, B.A., M.A., Ph.D. | Staten Island |
| WADES NORWOOD, B.A. | Rochester |
| JUDITH CHIN, B.S., M.S. | Queens |
| KATHLEEN M. CASHIN, B.S., M.S., Ed.D. | Brooklyn |
| JAMES E. COTTRELL, B.S., M.D. | New York |

Commissioner of Education

President of The University of the State of New York

MARYELLEN ELIA

Executive Deputy Commissioner

ELIZABETH BERLIN

The State Education Department does not discriminate on the basis of age, color, religion, creed, disability, marital status, veteran status, national origin, race, gender, genetic predisposition or carrier status, or sexual orientation in its educational programs, services and activities. Portions of this publication can be made available in a variety of formats, including Braille, large print or audio tape, upon request. Inquiries concerning this policy of nondiscrimination should be directed to the Department's Office for Diversity, Ethics, and Access, Room 530, Education Building, Albany, NY 12234. Requests for additional copies of this publication may be made by contacting the Publications Sales Desk, Room 319, Education Building, Albany, NY 12234.

Living Environment

High School Level

Glossary

English / Hindi

| English | Hindi |
|---|-----------------------------------|
| A | |
| abandon | छोड़ देना |
| abbreviation | शब्द-संक्षेप |
| ability | योग्यता |
| abiogenesis | स्वतः उत्पत्ति |
| abiotic | अजैविक |
| abiotic factor | अजैविक कारक |
| abortion | गर्भपात |
| absorption | अवशोषण |
| accomplish | पूर्ण करना |
| according to | इसके अनुसार |
| account | लेखा |
| accumulate | जमा |
| accurate | सही |
| acetylcholine | एसिटाइलकोलाइन |
| acid | अम्ल |
| acid rain | अम्ल वर्षा |
| acidity | अम्लता |
| acne | मुँहासे |
| acquire | अधिग्रहण |
| acquired characteristics | हासिल कर ली विशेषताएँ |
| acquired immunity | प्राप्त प्रतिरक्षा |
| acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) | एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम (एड्स) |
| acromegaly | महाकायता |
| activation energy | सक्रियण ऊर्जा |
| active immunity | सक्रिय प्रतिरक्षा |
| active site | सक्रिय स्थल |

| English | Hindi |
|-------------------------------------|--|
| active transport | सक्रिय परिवहन |
| activity | गतिविधि |
| adaptation | अनुकूलन |
| adaptive | अनुकूली |
| adaptive radiation | अनुकूली विकिरण |
| adaptive value | अनुकूली मूल्य |
| addiction | लत |
| additional | अतिरिक्त |
| adenine | अडिनाइन (न्यूक्लिक एसिड की बुनियादी घटकों में से एक) |
| adenosine diphosphate (ADP) | एडेनोसाइन डीफोस्फेट (ADP), चयापचय में अपने एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए आवश्यक है। |
| adenosine monophosphate (AMP) | एडेनोसाइन मोनोफास्फेट (AMP), यह फॉस्फोरिक एसिड के एक एस्टर और न्यूक्लीओसाइड एडेनोसाइन है। |
| adenosine triphosphate (ATP) | एडेनोसाइन ट्री फास्फेट (ATP), एक न्यूक्लियोटाइड ट्री फास्फेट एक कोएंजाइम के रूप में कोशिकाओं में प्रयोग किया जाता है |
| adequate | पर्याप्त |
| adhesion | आसंजन |
| adipose tissue | वसा ऊतक |
| adolescence | किशोरावस्था |
| adrenal cortex | अधिवृक्क बाह्यक |
| adrenal gland | अधिवृक्क ग्रन्थि |
| adrenal medulla | अधिवृक्क मज्जा |
| adrenaline | एड्रेनालाइन |
| adrenocorticotrophic hormone (ACTH) | अधिवृक्कप्रांतस्थाप्रेरक हार्मोन (ACTH) |
| adsorption | सोखना |
| adult | वयस्क |
| advantage | फायदा |
| aerobe | ऑक्सीजन मात्र पर जीवित रहने वाला रोगाणु |
| aerobic | एरोबिक, वायुजीवी |
| aerobic respiration | एरोबिक श्वसन |
| aerosol | एयरोसोल |
| afterbirth | जन्म के बाद |
| agar | अगर, एक पतला सामग्री समुद्री शैवाल, विशेष रूप से समुद्री |

| English | Hindi |
|---|--|
| | शैवाल, प्रयोगशाला में और एक रोगन और खाद्य उत्पादों में स्थिरता के रूप में बैक्टीरियल संस्कृतियों से बढ़ के लिए एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता । |
| agarose | अगरोस |
| agglutination | संश्लेषण |
| agglutinin | अग्गलुटिनों |
| agglutinogen | अग्गलुटिनोजेन |
| aging | परिपक्वन |
| agricultural | कृषि संबंधी |
| agriculture | कृषि |
| AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) | एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम) |
| ailment | रोग |
| air pollution | वायु प्रदूषण |
| air sac | वायुकोष |
| air space | वायु अंतरिक्ष |
| albinism | रंगहीनता |
| albino | एक व्यक्ति या पशु सामान्य रंजकता की कमी के साथ |
| albumen | अंडे की सफेदी |
| alcoholic fermentation | शराबी किण्वन |
| algae | शैवाल |
| algal bloom | शैवाल का फलना |
| alimentary canal | आहार नली |
| alkaline | क्षारीय |
| all or none response | सभी या कोई भी प्रतिक्रिया |
| allantois | अपरापोषिका |
| allele (s) | एलील (s) |
| allergic | एलर्जी |
| allergic reactions | एलर्जी प्रतिक्रियाओं |
| allergy | एलर्जी |
| alter (ed) | बदल (ed) |
| altered gene | बदल जीन |
| alternation of generation | पीढ़ी के प्रत्यावर्तन |
| alveolus | दंतकोटर |
| ameba | एक सलि का जन्तु |
| amoeboid movement | अमीबीय गति |

| English | Hindi |
|---------------------|--|
| amino acid (s) | अमीनो अम्ल (s) |
| amino group | अमीनो समूह |
| ammonia | अमोनिया |
| amniocentesis | उल्वरेधन |
| amnion | भ्रूणावरण |
| amniotic fluid | भ्रूण अवरण द्रव |
| amount | रकम |
| amphibian | उभयचर |
| amylase | एमिलेज, श्वेतसार को शर्करा में बदलने वाला पदार्थ |
| anabolism | उपचय |
| anaerobe | अवायुजीवीय |
| anaerobic | अवायवीय |
| analgesic | एनाल्जेसिक, एक दवा दर्द समाप्त या कम कर देता है। |
| analogous structure | अनुरूप संरचना |
| anaphase | गतिस्थिति |
| anatomy | शरीर रचना विज्ञान |
| androgen | एण्ड्रोजेन, नर-हॉर्मोन |
| anemia | रक्ताल्पता |
| angina pectoris | एंजाइना पेक्टोरिस |
| animal | जानवर |
| ant | चींटी |
| antenna (e) | एंटीना |
| anterior | पूर्वकाल का |
| anther | परागकोश |
| antibiotic (s) | एंटीबायोटिक(s) |
| antibodies | एंटीबॉडीस |
| antibody | एंटीबॉडी |
| anticodon | एंटीकोडोन |
| antigen | एंटीजन |
| antihistamine | हिस्टमीन रोधी |
| antiseptics | रोगाणुरोधक |
| antitoxin | विषनाशक |
| anus | गुदा |
| aorta | महाधमनी |
| aortic arch | महाधमनी चाप |

| English | Hindi |
|----------------------|------------------------------|
| aphotic zone | अफोटिक जोन |
| appearance | दिखावट |
| appendage | अनुबंध |
| appendicitis | पथरी |
| appendix | परिशिष्ट |
| apply | लागू |
| appropriate | उपयुक्त |
| approval | अनुमोदन |
| aquaculture | जलीय कृषि |
| aquarium | मछलीघर |
| aquatic | जलीय |
| arid | शुष्क |
| arrow | तीर |
| arteriole | धमनिका |
| artery | धमनी |
| arthritis | गठिया |
| artificial selection | कृत्रिम चयन |
| asbestos | अदह |
| ascending colon | आरोही बृहदान्त्र |
| ascorbic acid | एस्कॉर्बिक एसिड |
| asexual | यौन भावनाओं या संघों के बिना |
| asexual reproduction | अलैंगिक प्रजनन |
| asexually | अलैंगिक तरीके से |
| ash | भस्म |
| aspen | ऐस्पन |
| assembled | इकट्ठे |
| assimilation | परिपाक |
| associate | साथी |
| association neuron | संघ न्यूरॉन |
| assuming | यह मानते हुए |
| assumption | कल्पना |
| aster | एस्टर |
| asthma | दमा |
| astigmatism | दृष्टिवैषम्य |
| atherosclerosis | धमनीकलाकाठिन्य |

| English | Hindi |
|-------------------------------|--------------------------------|
| athlete's foot | एथलीट फुट |
| atmosphere | वायुमंडल |
| atmospheric | वायुमंडलीय |
| atmospheric temperature | वायुमंडलीय तापमान |
| atom | परमाणु |
| atomic mass | परमाणु जन |
| atomic number | परमाणु क्रमांक |
| ATP (adenosine tri-phosphate) | एटीपी (adenosine triphosphate) |
| atria | अटरिया |
| atrium | आलिंद |
| attach | मिला लेना |
| attack | आक्रमण |
| attempt | प्रयास |
| auditory canal | श्रवण नलिका |
| auditory nerve | श्रवण तंत्रिका |
| auricle | कर्ण-शष्कुली |
| autoclave | आटोक्लेव |
| automobile | मोटर |
| autonomic nervous system | स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली |
| autosome | अलिंगसूत्र |
| autotroph | स्वपोषी |
| autotrophic | स्वपोषी |
| autotrophic nutrition | स्वपोषी पोषण |
| auxin | ऑक्सीन |
| availability | उपलब्धता |
| available | उपलब्ध |
| axis | धुरी |
| axon | अक्षतंतु |
| B | |
| bacteria | जीवाणु |
| bacterial | जीवाण्विक |
| bacterial infections | जीवाण्विक संक्रमण |
| bacterial pneumonia | बैक्टीरियल निमोनिया |
| bacteriophage | जीवाणुभोजी |
| bacterium | जीवाणु |

| English | Hindi |
|-----------------------|----------------------------|
| balance | संतुलन |
| balanced diet | संतुलित आहार |
| ball and socket joint | बॉल और सॉकेट जॉइंट |
| bare | नंगा, मात्र |
| bark | छाल |
| barnacle | थकानेवाला |
| basal metabolic rate | बुनियादी चयापचय दर |
| base | आधार |
| base-pairing | आधार बॉधना |
| bass | बास |
| beak | चौंच |
| bear | सहन |
| beaver | ऊद्बिलाव |
| beetle | भृंग |
| behavior | व्यवहार |
| behavioral | व्यवहार |
| benedict's solution | बेनेडिक्ट के समाधान |
| benthos | नितल जीवसमूह |
| beriberi | एक प्रकार का रोग |
| bias | पक्षपात |
| bicarbonate | बाइकार्बोनेट |
| biceps | बाइसेप्स |
| bicuspid valve | द्विकपर्दी वाल्व |
| bilateral symmetry | द्विपक्षीय सममिति |
| bile | पित्त |
| bile duct | पित्त वाहिका |
| bile pigment | पित्त वर्णक |
| binary fission | बाइनरी विखंडन |
| binomial nomenclature | द्विपद नामकरण |
| biochemical processes | जैव रासायनिक प्रक्रियाओं |
| biochemistry | जीव रसायन |
| biodegradable | प्राकृतिक तरीके से सङ्नशील |
| biodiversity | जैव विविधता |
| biogenesis | जीवजनन |
| biogeochemical cycle | बिगोकेमिकल चक्र |

| English | Hindi |
|--------------------------|--|
| biological catalysis | जैविक कॉटैलिसीस |
| biological control | जैविक नियंत्रण |
| biological magnification | जैविक आवर्धन |
| biology | जीव-विज्ञान |
| biomass | जैव ईंधन |
| biome | बायोम |
| bioremediation | जैविक उपचार |
| biosphere | जैव मंडल |
| biotechnological | जैव प्रौद्योगिकी के |
| biotechnology | जैव प्रौद्योगिकी |
| biotic | जैविक |
| biotic factor | जैविक कारक |
| birch | भूर्ज |
| birth canal | जन्म नलिका |
| birth control | जन्म नियंत्रण |
| birth rate | जन्म दर |
| biuret test | बाईयूरेट टेस्ट |
| bladder | मूत्राशय |
| blade | ब्लेड |
| blastula | विकास के प्रारंभिक चरण में पशु भूण |
| blending inheritance | सम्मिश्रण विरासत |
| blind spot | अस्पष्ट जगह |
| blinking | टिमटिमा रहा |
| block | खंड |
| blood | रक्त |
| blood cavity | रक्त गुहा |
| blood circulation | रक्त संचार |
| blood clotting | खून का जमना |
| blood group | रक्त वर्ग |
| blood plasma | रक्तद्रव |
| blood platelet | रक्त प्लेटलेट |
| blood pressure | रक्त चाप |
| blood smear | रक्त की एक बूँद जो परीक्षण हेतु स्लाइड पर फैला कर पतली कर दी जाती है |
| blood sugar | रक्तशर्करा, रक्त में ग्लूकोज की एकाग्रता। |
| blood transfusion | रक्त आधान |

| English | Hindi |
|-------------------|---|
| blood vessel | रक्त वाहिका |
| boil | खौलना |
| bond | बंधन |
| bone | हड्डी |
| bone marrow | मज्जा, हड्डियों की गुहाओं में एक नरम वसायुक्त पदार्थ |
| booklet | विवरणिका |
| botany | वनस्पति विज्ञान |
| Bowman's capsule | एक फ़िल्टरीदार, डबल घिरी कैप्सूल एक नेफ्रॉन की केशिकास्तवक आसपास। |
| brain | दिमाग |
| brain stem | मस्तिष्क नली |
| bread mold | फफूंदी लगना |
| breathing | सांस लेना |
| breeding | प्रजनन |
| briefly | संक्षिप्त |
| broccoli | ब्रोकोली |
| bronchitis | कफ की खाँसी, |
| bronchus | श्वसनी |
| bubble | बुलबुला |
| bud | अंकुर |
| budding | नवोदित |
| buffer | बफर |
| bulb | बल्ब |
| burn | जलाना |
| C | |
| cabbage | पत्तागोभी |
| calcium | कैल्शियम |
| calcium carbonate | कैल्शियम कार्बनेट |
| calibrate | जांचना |
| calorie | कैलोरी |
| calorimeter | कैलोरीमीटर, ऊष्मामापी |
| cancer | कैंसर, नासूर |
| canopy | शामियाना |
| capacity | क्षमता |

| English | Hindi |
|------------------------|---------------------------------|
| capillary | केशिका |
| capillary action | केशिका की कार्यवाई |
| carbohydrate | कार्बोहाइड्रेट |
| carbohydrate (s) | कार्बोहाइड्रेट (s) |
| carbon | कार्बन |
| carbon cycle | कार्बन चक्र |
| carbon dioxide | कार्बन डाइऑक्साइड |
| carbon fixation | कार्बन स्थिरीकरण |
| carbon monoxide | कार्बन मोनोऑक्साइड |
| carbon-containing | कार्बन युक्त |
| carboxyl group | कार्बाक्सिल ग्रुप |
| carcinogen | कैंसरकारक |
| cardiac muscle | हृदय की पेशिया |
| cardiovascular disease | हृदय रोग |
| carnivore | मांसाहारी |
| carnivorous | मांसभक्षी |
| carotene | कैरोटीन |
| carrier | वाहक |
| carrying capacity | वहन क्षमता |
| cartilage | उपास्थि |
| catabolism | अपचय |
| catalase | केटालेज़ |
| catalyst | उत्प्रेरक |
| caterpillar | संडी |
| catfish | कैटफिश |
| cattail | कैटेल |
| caudal fin | मछली व दूसरे जलीय जीवों की पूँछ |
| caudal vertebra | दुम बांस |
| caudatum | कउदतुम |
| cauliflower | फूलगोभी |
| cell | सेल, कोशिका |
| cell body | कोशिका – पिण्ड |
| cell cycle | कोशिका चक्र |
| cell division | कोशिका विभाजन |
| cell membrane | कोशिका डिल्ली |

| English | Hindi |
|------------------------|----------------------------------|
| cell plate | सेल प्लेट |
| cell respiration | सेल श्वसन |
| cell specialization | कोशिका की विशेषज्ञता |
| cell theory | कोशिका सिद्धांत |
| cell wall | कोशिका भित्ति |
| cell-mediated immunity | सेल की मध्यस्थिता प्रतिरक्षा में |
| cellular respiration | कोशिकीय श्वसन |
| cellulose | सेल्यूलोज़ |
| Celsius | सेल्सीयस |
| Celsius scale | सेल्सियस पैमाने |
| centigrade | सेंटीग्रेड |
| centimeter | सेंटीमीटर |
| central nervous system | केंद्रीय स्नायुतंत्र |
| centrifuge | अपकेंद्रित्र |
| centriole | तारककेंद्रक |
| centromere | गुणसूत्रबिंदु |
| centrosome | केंद्रपिण्ड |
| cereal group | अनाज समूह |
| cerebellum | सेरिबेलम |
| cerebral cortex | सेरेब्रल कॉर्टिकस |
| cerebrospinal fluid | मेरुरजिका द्रव्य |
| cerebrum | मस्तिष्क |
| certain | कुछ |
| cervix | गर्भाशय ग्रीवा |
| challenge | चुनौती |
| chemical | रासायनिक |
| chemical bond | रसायनिक बंध |
| chemical equation | रासायनिक समीकरण |
| chemical formula | रासायनिक सूत्र |
| chemical reaction | रासायनिक प्रतिक्रिया |
| chemoautotroph | केमोऑटोट्रोफ |
| chemosynthesis | केमोसयनथसिस |
| chemotherapy | कीमोथेरेपी |
| chemotropism | केमोट्रोपिस्म |
| chicken pox | चेचक |

| English | Hindi |
|-----------------------------|----------------------------|
| chipmunk | गिलहरी |
| chitin | काइटिन |
| chlorine | क्लोरीन |
| chlorophyll | क्लोरोफिल |
| chloroplast | क्लोरोप्लास्ट |
| cholera | हैज़ा |
| cholesterol | कोलेस्ट्रॉल |
| chordate | कोरडेट |
| chorion | जरायु |
| chromatid | करोमतिद |
| chromatin | क्रोमेटिन |
| chromatography | क्रोमैटोग्राफी |
| chromosomal alteration | गुणसूत्र परिवर्तन |
| chromosomal recombination's | गुणसूत्र के पुनर्संयोजन के |
| chromosome | क्रोमोसाम |
| chyme | काइम |
| cilia | सिलिया |
| ciliary motion | सिलिअरी गति |
| circulation | संचलन |
| circulate | परिचालित |
| circulatory | परिसंचरण |
| circulatory system | संचार प्रणाली |
| claim | दावा |
| class | कक्षा |
| classification | वर्गीकरण |
| classify | वर्गीकृत |
| clawed | नौकदार |
| cleavage | दरार |
| climate | जलवायु |
| climax community | क्लाइमेक्स समुदाय |
| climax | चरमोत्कर्ष |
| climax | चरमोत्कर्ष |
| clipping | कतरन |
| clone | क्लोन |
| cloning | क्लोनिंग |

| English | Hindi |
|---------------------------------|-------------------------------|
| close circulatory systems | बंद संचार प्रणालियां |
| coacervate | कअसरवते |
| coal | कोयला |
| coarse adjustment | मोटे समायोजन |
| coast | तट |
| coastal ocean | तटीय सागर |
| coastline | समुद्र तट |
| cocci | कक्की |
| coccus | गोलाणु |
| cockroach | तिलचट्टा |
| cocoon | कोकून |
| codominance | सहप्रबलता |
| codon | कोडोन |
| coenzyme | कोएंजाइम |
| coevolution | सहविकास |
| cohesion | एकजुटता |
| cohesive force | एकजुट बल |
| collect | इकट्ठा |
| collecting duct | संग्रहण नलिका |
| colloidal dispersion | कोलाइडयन फैलाव |
| colon | बृहदान्त्र |
| colony | उपनिवेश |
| color blindness | रंग अंधापन |
| coloration | रंगाई |
| combat | युद्ध |
| combination | मिश्रण |
| commensalism | दो जीवों के बीच एक संघ |
| common | सामान्य |
| common ancestor | समान पूर्वज |
| common cold | सामान्य जुखाम |
| communicable | संक्रामक |
| communication | संचार |
| community | समुदाय |
| competition | प्रतियोगिता |
| competitive exclusion principle | प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत |

| English | Hindi |
|-----------------------------|---------------------------|
| complementary | पूरक |
| complete protein | पूरा प्रोटीन |
| complex multicellular | जटिल बहुकोशिकीय |
| complexity | जटिलता |
| compost | खाद |
| compound | यौगिक |
| compound eye | कंपाउंड आई |
| compound light microscope | यौगिक प्रकाश माइक्रोस्कोप |
| compound microscope | यौगिक सूक्ष्मदर्शी |
| concentration | एकाग्रता |
| concentration gradient | सघनता अनुपात |
| concept | धारणा |
| conception | धारणा |
| concerning | के बारे में |
| conclusion | निष्कर्ष |
| condensation | संक्षेपण |
| conditioned reflex | स्वचालित प्रतिक्रिया |
| conditioning | अनुकूलन |
| conduct | आचरण |
| conduction | चालन |
| cone | शंकु |
| conifer | शंकुवृक्ष |
| coniferous | शंकुधारी |
| coniferous forest | शंकुधारी वन |
| conjugation | संयुगमन |
| connective tissue | संयोजी ऊतक |
| conservation | संरक्षण |
| conservation of environment | पर्यावरण का संरक्षण |
| considered | विचार किया |
| constipation | कब्ज |
| construct | निर्माण |
| consumer | उपभोक्ता |
| contain | शामिल |
| content | विषयवस्तु |
| contour farming | समोच्च खेती |

| English | Hindi |
|-----------------------|--------------------|
| contour ploughing | समोच्च जुताई |
| contraception | गर्भनिरोधक |
| contractile vacuole | प्रक्षेपण वैक्यूओल |
| contribute | योगदान |
| control | नियंत्रण |
| controlled experiment | नियंत्रित प्रयोग |
| controlled variable | नियंत्रित चर |
| convergent evolution | संसृत विकास |
| convert | बदलना |
| convulsion | ऐठन |
| coordinating system | समन्वय प्रणाली |
| coordination | समन्वय |
| coral | प्रवाल |
| coral reef | कोरल रीफ |
| coronary circulation | कोरोनरी परिसंचरण |
| coronary artery | कोरोनरी धमनी |
| corpus luteum | पीत - पिण्ड |
| cortex | कोर्टेक्स |
| cortisone | कोर्टिसोन |
| cotyledon | बीजपत्र |
| covalent bond | सहसंयोजक बंधन |
| cover | आवरण |
| cover crop | कवर फसल |
| coverslip | कवरस्लिप |
| Cowper's gland | काउपर की ग्रंथि |
| Cranial nerve | कपालीय तंत्रिका |
| crayfish | क्रेफिश |
| crescent | अर्द्ध चंद्राकार |
| cretinism | बौनापन |
| cricket | क्रिकेट |
| crisp | कुरकुरा |
| crop | फसल |
| crop rotation | फसल का चक्रिकरण |
| crop breeding | फसल प्रजनन |
| crop fertilization | फसल निषेचन |

| English | Hindi |
|----------------------|---|
| crop pollination | फसल परागण |
| crossing-over | बदलते हुए |
| crustacean | जलीय |
| cryptic coloration | क्रिप्टिक कलोरेशन |
| cultivated plant | कलतिवेटेड प्लांट |
| culture | संस्कृति |
| currently | वर्तमान में |
| cuticle | छल्ली |
| cutting | काट रहा है |
| cycling | साइकिल चलाना |
| cyclonic | चक्रवाती |
| cysteine | सिस्टीन |
| cytokinesis | कयटकिन्सिस |
| cytolysis | कयटलयसिस |
| cyton | साइटोन |
| cytoplasm | कोशिका द्रव्य |
| cytoplasmic division | साइटोप्लाज्मिक डिवीजन |
| cytosine | साइटोसिन |
| cytoskeleton | कयटोस्केलेटों |
| D | |
| damage | क्षति |
| dangerous | खतरनाक |
| dark reaction | अंधेरे प्रतिक्रिया |
| Darwinism | तत्त्वजानी |
| data | आंकड़े |
| daughter cell | डॉटर सेल |
| deamination | एक एमिनो एसिड या अन्य परिसर से एक एमिनो समूह को हटाना |
| decay | क्षय |
| deciduous | पतनशील |
| deciduous tree | पर्णपाती पेङ |
| decomposer (s) | दीक्षियोसेर (s), एक जीव, विशेष रूप से एक मृदा जीवाणु, कवक, या अकशेरुकी, कि जैविक सामग्री मिटाता है। |
| decomposition | सङ्घरण |

| English | Hindi |
|-------------------------------------|------------------------------|
| decrease | कमी |
| defecation | मलत्याग |
| defective | दोषपूर्ण |
| defective gene | दोषपूर्ण जीन |
| deficiency disease | कमी से बोमारी |
| defoliation | पतझड़ |
| deforestation | वनों की कटाई |
| degeneration | आधः पतन |
| dehydration | निर्जलीकरण |
| dehydration synthesis | निर्जलीकरण संश्लेषण |
| dehydrogenase | डिहाइड्रोजनेज |
| deletion | विलोपन |
| demand | मांग |
| demographic transition | आबादी परिवर्तन |
| demography | आबादी |
| denaturation | विकृतीकरण |
| dendrite | द्रुमिका |
| denitrification | विनाइट्रीकरण |
| denitrifying bacteria | देण्ट्रीफियंग बैक्टीरिया |
| density-dependent limiting factor | घनत्व पर निर्भर सीमित कारक |
| density-independent limiting factor | घनत्व स्वतंत्र सीमित कारक |
| deoxyribonucleic acid (DNA) | डोग्निबोनुक्लेस एसिड (डीएनए) |
| deoxyribose | डोग्निबोस |
| dependent variable | आश्रित चर |
| deplete | व्यय करना |
| depletion | कमी |
| depressant | अवसाद |
| dermis | डर्मिस |
| desalination | समुद्र की सफाई |
| desert | रेगिस्तान |
| desertification | मरुस्थलीकरण |
| desirable | वांछित |
| destroy | नष्ट |
| destruction | विनाश |
| detect | पता लगाना |

| English | Hindi |
|--------------------------|-------------------------|
| detection | खोज |
| determine | निर्धारित |
| detoxication | विषहीन |
| detrimental | हानिकारक |
| detritus | कतरे |
| development | विकास |
| deviation | विचलन |
| dextrose | डेक्सट्रोज |
| diabetes | मधुमेह |
| diagram | आरेख |
| dialysis | डायलिसिस |
| diaphragm | डायाफ्राम |
| diarrhea | दस्त |
| diastole | डायस्टोल |
| diastolic pressure | डायस्टोलिक दबाव |
| diatom | डायटम |
| dichotomous | डाइकोटोमस |
| dichotomous key | डाइकोटमस कुंजी |
| died off | से मर |
| diet | आहार |
| differ | अलग |
| differences | मतभेद |
| differentiation | भेदभाव |
| diffusion | प्रसार |
| digest | संकलन |
| digestion | पाचन |
| digestive enzyme | पाचक एंजाइम |
| digestive juices | पाचक रस |
| digestive system | पाचन तंत्र |
| dihybrid | दिहयबृद्ध |
| dihybrid cross | दिहयबृद्ध क्रॉस |
| dilation of blood vessel | रक्त वाहिनियों के फैलाव |
| dimorphism | द्विविरूपता |
| dinosaur | डायनासोर |
| dioxide | डाइऑक्साइड |

| English | Hindi |
|-----------------------------|------------------------------|
| dipeptide | डिपराइड |
| diphtheria | डिफ्थीरिया |
| diploid | द्विगुणित |
| direct harvesting | प्रत्यक्ष कटाई |
| direction | दिशा |
| directly | सीधे |
| disaccharide | डाइसैकराइड |
| disadvantage | नुकसान |
| disaster | आपदा |
| discs | डिस्क |
| disease | रोग |
| disjunction | अलगाव |
| dislocation | अव्यवस्था |
| dispersal | प्रसार |
| disposal | निपटान |
| dispose | निपटाना |
| disrupt | बाधित |
| dissecting microscope | विच्छेदन माइक्रोस्कोप |
| dissection | विच्छेदन |
| dissolve | भंग |
| diuretic | मूत्रवर्धक |
| diurnal | दिनचर |
| diversity | विविधता |
| divide | विभाजन |
| (DNA) deoxyribonucleic acid | (डीएनए) डोग्यूबोनुक्लेक एसिड |
| DNA fingerprinting | डीएनए फिंगरप्रिंटिंग |
| DNA polymerase | डीएनए पोलीमरेज़ |
| dominance | प्रभाव |
| dominant | प्रमुख |
| dominant gene | प्रमुख जीन |
| dominant species | प्रमुख प्रजातियां |
| dominant trait | प्रमुख विशेषता |
| dormancy | निद्रा |
| dorsal | पृष्ठीय |
| double fertilization | दोगुना निषेचन |

| English | Hindi |
|-----------------------|---|
| double helix | दोहरी कुंडली |
| Down's syndrome | डाउन सिंड्रोम |
| drainage | जलनिकास |
| drilling | ड्रिलिंग |
| drone | परजीवी |
| drosophila | ड्रोसोफिला |
| drug | दवा |
| drug abuse | दवाई का दुरुपयोग, नशीली दवाओं के दुरुपयोग |
| drug dependence | नशीली दवाओं पर निर्भरता |
| drug overdose | दवाई की अतिमात्रा |
| duckweed | डकवीद |
| ductless gland | डक्टलेस्स ग्लैंड, अंतः स्रावी ग्रंथि |
| dump | द्वेर |
| duodenum | पाचनांत्र |
| dwarfism | बौनापन |
| dynamic | गतिशील |
| dynamic equilibrium | गतिशील संतुलन |
| dysentery | पेचिश |
| E | |
| eagle | बाज |
| ear | कान |
| ear canal | कान के अंदर की नलिका |
| eardrum | कर्णपट |
| earthworm | केंचुआ |
| echinoderm | इकाइनडर्म, शूलचर्मी |
| ecological | पारिस्थितिक |
| ecological riche (s) | इकोलॉजिकल रिचे (स) |
| ecological pyramid | पारिस्थितिकी पिरामिड |
| ecological succession | पारिस्थितिकी उत्तराधिकार |
| ecologically | पारिस्थितिकी |
| ecology | परिस्थिति विज्ञान |
| economically | आर्थिक रूप से |
| ecosystem | पारिस्थितिकी तंत्र |
| ecosystem diversity | पारिस्थितिकी तंत्र विविधता |
| ectoderm | बाहरी झिल्ली |

| English | Hindi |
|----------------------------------|--|
| edema | एडीमा, शोफ |
| effective | प्रभावी |
| effectiveness | प्रभावशीलता |
| effector | प्रेरक |
| egg | अंडा |
| ejection | निर्वहन, इजेक्शन |
| elbow joint | कोहनी का जोड़ |
| electrocardiogram (egg) or (ekg) | इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (अंडे) या (ईकेजी) |
| electron | इलेक्ट्रॉन |
| electron microscope | इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी |
| electronic balance | इलेक्ट्रॉनिक संतुलन |
| electrophoresis | इलेक्ट्रोफोरेसिस |
| element | तत्त्व |
| elephantiasis | श्लीपद |
| eliminate | खत्म करने |
| elongation region | बढ़ाव क्षेत्र |
| elongation zone | बढ़ाव क्षेत्र |
| embolism | दिल का आवेश |
| embolus | थक्का |
| embryo | भ्रूण |
| embryo sac | भ्रूण थैली |
| embryology | भ्रूणविज्ञान |
| embryonic | भ्रूणीय |
| embryonic membrane | भ्रूण झिल्ली |
| emigration | प्रवासी |
| emit | फेंकना |
| emphysema | वातस्फीति |
| emulsification | पायसीकरण |
| enable | सक्षम |
| enamel | तामचीनी |
| end product | अंतिम उत्पाद |
| endangered species | लुप्तप्राय प्रजातियाँ |
| endemic | स्थानिक |
| endocrine gland(s) | अंतः स्रावी ग्रंथियाँ |
| endocrine system | अंतःस्रावी प्रणाली |

| English | Hindi |
|--------------------------------|-----------------------------|
| endocrinology | अंतःस्त्राविका |
| endocytosis | एंडोयटोसिस |
| endoderm | अन्तर्जनस्तर |
| endoparasite | एण्डोपरसिट |
| endoplasmic | एंडोप्लाज्मिक |
| endoskeleton | अन्तःकंकाल |
| endosperm | एण्डोस्पर्म |
| endosperm nucleus | एण्डोस्पर्म नाभिक |
| energy flow | ऊर्जा प्रवाह |
| energy pyramid | ऊर्जा पिरामिड |
| engineering | इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी |
| engulf | निगल जाना |
| enlist | प्राप्त करना |
| enrich | समृद्ध |
| environment | पर्यावरण |
| environmental | पर्यावरण की |
| environmental impact statement | पर्यावरणीय प्रभाव बयान |
| enzyme(s) | एंजाइम (s) |
| enzyme-substrate complex | एंजाइम सबस्ट्रेट जटिल |
| epicotyls | एपिकतयल |
| epidemic | महामारी |
| epidermis | एपिडर्मिस |
| epididymis | अधिवृष्ण |
| epiglottis | उपकंठ |
| epinephrine (adrenaline) | एपिनेफ्रिन (एड्रेनालाईन) |
| epithelium | एपिथीलियम |
| equatorial plane | एक्वेटोरियल प्लेन |
| equatorial plate | इक्वेटोरियल प्लेट |
| equilibrium | संतुलन |
| era | युग |
| erect posture | मुद्रा सीधा |
| erosion | कटाव |
| error | गलती |
| escherichia coli (e. coli) | एस्चेरिचिया कोलि (e. coli) |
| esophagus | घेघा |

| English | Hindi |
|----------------------|-------------------|
| essential amino acid | आवश्यक अमीनो एसिड |
| estrogen | एस्ट्रोजन |
| estuary | मुहाना |
| ethyl alcohol | एथिल अल्कोहल |
| euglena | उग्लेना |
| eukaryote | यूकेरियोट |
| eukaryotic cell | यूकेरियोटिक सेल |
| eustachian tube | कान का उपकरण |
| evaporate | लुप्त हो जाना |
| evaporation | वाष्पीकरण |
| evidence | सबूत |
| evolution | क्रमागत उन्नति |
| evolutionary | विकासवादी |
| evolve | विकसित करना |
| examination | परीक्षा |
| except | सिवाय |
| excess | अधिक |
| excessive | अत्यधिक |
| excretion | उत्सर्जन |
| excretory | निकालनेवाला |
| exercise | व्यायाम |
| exhalation | साँस छोड़ना |
| exhale | साँस छोड़ना |
| exhaust | निकास |
| exhibit | एकिज़बिट |
| exist(s) | मौजूद |
| exocrine gland | बहिस्रोती ग्रंथि |
| exon | एक्सॉन |
| exoskeleton | बहिकंकाल |
| experiment | प्रयोग |
| expiration | समाप्ति |
| explanation | व्याख्या |
| explosive | विस्फोटक |
| exponential growth | तेजी से विकास |
| expose(d) | बेनकाब (d) |

| English | Hindi |
|----------------------------|-----------------------------|
| expressed | व्यक्त |
| expression | अभिव्यक्ति |
| extensor | प्रसारिणी |
| extent | सीमा |
| external | बाहरी |
| external fertilization | बाह्य निषेचन |
| external respiration | बाहरी श्वसन |
| extinct | विलुप्त |
| extinction | विलुप्त होने |
| extinction of fauna | जीव-जंतुओं का लुप्त होना |
| extracellular digestion | बाह्य पाचन |
| extract | उद्धरण |
| eye | आँख |
| eyepiece (ocular) | आईपीस (नेत्र) |
| F | |
| facilitated diffusion | सुविधा विसरण |
| fahrenheit scale | फारेनहाइट पैमाना |
| fallopian tube (oviduct) | फैलोपियन ट्यूब (डिंबवाहिनी) |
| fallout | विवाद |
| family | परिवार |
| fangs | नुकीले दांत |
| farsightedness | दूरदृश्यता |
| fat | वसा |
| fatal | घातक |
| fatigue | थकान |
| fatty acid | वसा अम्ल |
| feather | पंख |
| feces | मल |
| feedback | प्रतिक्रिया |
| feedback mechanism | प्रतिक्रिया तंत्र |
| female gamete | मादा युग्मक |
| female reproductive system | मादा प्रजनन प्रणाली |
| femur | जाँघ की हड्डी |
| fermentation | किण्वन |
| fern | फर्न |

| English | Hindi |
|-------------------------|--------------------------|
| fertilization | निषेचन |
| fertilizer(s) | उर्वरक (s) |
| fetal | भ्रूण |
| fetal alcohol syndrome | भ्रूण शराब सिंड्रोम |
| fetus | भ्रूण |
| fever | बुखार |
| fewer | कम |
| fiber | रेशा |
| fibrin | फाइब्रिन, जमने योग्य वसा |
| fibrinogen | फाइब्रोजन |
| fibrous root system | रेशेदार जड़ प्रणाली |
| field | क्षेत्र |
| field of microscope | माइक्रोस्कोप के क्षेत्र |
| filament | फिलामेंट |
| filter out | छानना |
| filtered | छाना हुआ |
| filtrate | छानना |
| filtration | छानने का काम |
| fin | पंख |
| finches | फिनचेस |
| fine adjustment | ठीक समायोजन |
| fingerprinting | फिंगरप्रिंटिंग |
| finite | सीमित |
| firm | दृढ़ |
| first filial generation | पहली संतानीय पीढ़ी |
| first-level consumer | पहले स्तर के उपभोक्ता |
| fission | विखंडन |
| flagella | कशाभ |
| flagellum | कशाभिका |
| flatworm | समतल कीड़ा |
| flea | पिस्सु |
| flexor | आकंचिका |
| flipper of whale | व्हेल की पट्टिका |
| fluorescence | पुष्पन |
| flow | प्रवाह |

| English | Hindi |
|------------------------------------|---------------------------|
| flow of energy | ऊर्जा का प्रवाह |
| flower | फूल |
| fluid | तरल पदार्थ |
| fluke | अनायास सफलता |
| fluoridation | फ्लोरिडेशन |
| fluoride | फ्लोराइड |
| folic acid | फोलिक एसिड |
| follicle | कूप |
| follicle stimulating hormone (fsh) | कूप उत्तेजक हार्मोन (FSH) |
| food allergen | खाद्य एलर्जी |
| food chain | खाद्य श्रृंखला |
| food poisoning | विषाक्त भोजन |
| food pyramid | खाद्य पिरामिड |
| food vacuole | खाद्य रिक्तिका |
| food web | खाद्य वेब |
| forceps | चिमटी |
| forest conservation | वन संरक्षण |
| form | स्वरूप |
| formation | गठन |
| formula | नुसखा |
| fossil | जीवाशम |
| fossil fuel | जीवाशम ईंधन |
| fossil record | जीवाशम अभिलेख |
| four o'clock flower | चार बजे का फूल |
| fracture | हड्डी टूटना |
| fragment | खंड |
| fraternal twin | आपसी जुड़वां |
| freeze drying | निर्जलीकरण की प्रक्रिया |
| frequently | बार बार |
| freshwater | ताजा पानी |
| fructose | फ्रक्टोज |
| fruit | फल |
| fruit fly | फल मक्खी |
| fumes | धुएं |
| fungi | कवक |

| English | Hindi |
|------------------------|---|
| fungus | कुकुरमुत्ता |
| fur | फर |
| G | |
| galactose | गैलेक्टोज |
| galactosemia | गलैक्टोसेमिया |
| gall bladder | पित्ताशय |
| gallon | गैलन |
| gallstone | पित्त पथरी |
| gamete | युग्मक |
| gametogenesis | गमतोगेनिस |
| gamma globulin | गामा ग्लोब्युलिन |
| ganglion | नाड़ीग्रन्थि |
| gas exchange | गैस विनिमय |
| gaseous exchange | गैसीय विनिमय |
| gasoline | पेट्रोल |
| gastric | पेट का, आमाशय |
| gastric juice | आमाशय रस |
| gastro vascular cavity | गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी |
| gastrula | गेस्ट्रुला |
| gastrulation | गैस्ट्रलेशन |
| gel electrophoresis | जेल वैद्युतकणसंचलन |
| gene | जीन |
| gene expression | जीन अभिव्यक्ति |
| gene frequency | जीन आवृत्ति |
| gene linkage | जीन लिंकेज |
| gene mutation | जीन उत्परिवर्तन |
| gene | जीन |
| gene(s) | जीन (s) |
| generalization | सामान्यकरण |
| genetic | आनुवंशिक |
| genetic counseling | आनुवांशिक परामर्श |
| genetic disease | आनुवंशिक रोग |
| genetic diversity | आनुवंशिक विविधता |
| genetic engineering | जनन विज्ञान अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग |
| genetic marker | आनुवंशिक मार्कर |

| English | Hindi |
|------------------------|---------------------------------------|
| genetic recombination | आनुवंशिक पुनर्संयोजन |
| genetic variation | आनुवंशिक विभिन्नता |
| genetically | आनुवंशिक रूप से |
| genetics | आनुवंशिकी |
| genome | जीनोम |
| genotype | जीनोटाइप |
| genus | जीनस |
| geographic isolation | भौगोलिक अलगाव |
| geologic time scale | भूगर्भिक समय के पैमाने |
| geotropism | गुरुत्वानुरूप |
| germ theory of disease | रोग के रोगाणु सिद्धांत |
| german measles | जर्मन ख्बसरा |
| germination | अंकुरण |
| gestation period | परियोजना पूरी होने की अवधि |
| gh (growth hormone) | जीएच (विकास हार्मोन) |
| gigantism | गिगन्तिस्म |
| gibberellins | गिब्बरेल्लिन |
| gill | गिल |
| gizzard | पक्षियों तथा मछलीयों का द्वितीय आमाशय |
| gland | ग्रंथि |
| global warming | भूमंडलीय ऊष्मीकरण |
| glomerulus | केशिकास्तवक, ग्लोमेर्युल्स |
| glucagon | ग्लूकाग्न |
| glucose | शक्रा |
| glycerol | ग्लिसरॉल |
| glycine | ग्लाइसिन |
| glycogen | ग्लाइकोजेन |
| glycolysis | ग्लाइकोलाइसिस |
| gaiter | पैर ढांकने की पट्टी |
| golgi body (apparatus) | गोल्गी शरीर (उपकरण) |
| gonad | जननद |
| gonadotropin | गोनाडोट्रोफिन |
| gonorrhea | सूजाक |
| gorilla | गोरिल्ला |
| gout | गठिया |

| English | Hindi |
|-----------------------|--------------------------------|
| gradualism | गरदुअलिस्म |
| graduated cylinder | सिलेंडर पर क्रम से चिह्न लगाना |
| grafting | ग्राफिंग |
| gram | चना |
| grana | ग्रेना |
| graph | ग्राफ |
| grasshopper | टिडी |
| grassland | चरागाह |
| gray matter | बुद्धि, ग्रे मैटर |
| green algae | हरी शैवाल |
| green revolution | हरित क्रांति |
| greenhouse effect | ग्रीनहाउस प्रभाव |
| greenhouse gas | ग्रीनहाउस गैस |
| grid | ग्रिड |
| growth | विकास |
| guanine | गुआनिन |
| guard cell(s) | रक्षक कोष |
| gullet | अन्ननाल |
| gymnosperm | अनावृतबीजी |
| gypsy moth | जिप्सी मोथ |
| H | |
| habit | आदत |
| habitat | आवास |
| habitat fragmentation | वास विखंडन |
| hair follicle | केश कूप |
| half-life | आधा जीवन |
| haploid (monoploid) | हप्लोइड (मोनोप्लॉइड) |
| Hardy Weinberg law | हार्डी वेन्बर्ग कानून |
| harm | हानि |
| harmful | हानिकारक |
| harmless | हानिरहित |
| harvesting | फसल कटाई |
| hatching | अंडे सेने |
| Haversian canal | हवरसिएन कैनल |
| hay | सूखी घास |

| English | Hindi |
|----------------------------|------------------------|
| hay fever | हे फीवर |
| heart | दिल |
| heart attack | दिल का दौरा |
| heart transplant | हृदय प्रत्यारोपण |
| heart-lung machine | दिल-लंग मशीन |
| heart beat cycle | दिल की धड़कन चक्र |
| helix | कुंडलित वक्रता |
| hemoglobin | हीमोग्लोबिन |
| hemolysis | रक्तापघटन |
| hemophilia | हीमोफिलिया |
| heparin | हेपरिन |
| hepatic artery | यकृत धमनी |
| hepatic portal circulation | यकृत पोर्टल संचलन |
| herb | औषधि |
| herbivore(s) | शाकाहारी (s) |
| hereditary | अनुवांशिक |
| heredity | आनुवांशिकता |
| hermaphrodite | द्विलिंग |
| heterotrophy | परपोषी |
| heterotroph hypothesis | परपोषी परिकल्पना |
| heterotrophic | परपोषी |
| heterotrophic nutrition | परपोषी पोषण |
| heterotrophs | हेटेरोट्रोफस, विषमपोषण |
| heterozygous | विषमयुग्मजी |
| heterozygous genotype | विषमयुग्मजी जीनोटाइप |
| hibernation | सीतनिद्रा |
| high blood pressure | उच्च रक्त चाप |
| high energy bond | उच्च ऊर्जा बंधन |
| hindbrain | पूर्ववर्तीमस्तिष्क |
| hip joint | कूलहे का जोड़ |
| histamine | हिस्टामिन |
| histidine | हिस्टिडीन |
| histology | ऊतक विज्ञान |
| histone | हिस्टोन |
| homeostasis | समस्थिति |

| English | Hindi |
|-----------------------|--------------------------------|
| homeowner | घर का मालिक |
| hominid | होमिनिड |
| homo sapiens | होमो सेपियन्स |
| homologous chromosome | मुताबिक गुणसूत्र |
| homologous structure | मुताबिक संरचना |
| homozygous | समयुग्मजी |
| homozygous genotype | समयुग्मजी जीनोटाइप |
| hoofed animal | खुरदार जानवर |
| hookworm | हुकवर्म |
| hormone | हार्मोन |
| host | मेर्ज़बान |
| hot | गरम |
| hot water bath | गर्म पानी से स्नान |
| huge | विशाल |
| hull | पतवार |
| humerus | प्रगंडिका |
| humidity | आर्द्रता |
| hummingbird | चिड़िया |
| humoral immunity | शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता |
| humus | धरण |
| hunting | शिकार करना |
| hybrid | संकर |
| hybrid vigor | संकर ताक्त |
| hybridization | संकरण |
| hydra | हायड्रा |
| hydrocarbon | हाइड्रोकार्बन |
| hydrochloric acid | हाइड्रोक्लोरिक अम्ल |
| hydrogen acceptor | हाइड्रोजन स्वीकर्ता |
| hydrolysis | हाइड्रोलिसिस |
| hydroponics | हीड्रोपोनिक्स |
| hydrotropism | ह्यड्रोट्रोपिस्म |
| hyper parasitism | हाइपर सुस्ती |
| hypertension | उच्च रक्तचाप |
| hyperthyroidism | अतिगलग्नथिता, हाइपोथायरायडिज्म |
| hypertonic solution | अतिपरासारी समाधान |

| English | Hindi |
|---------------------------|--|
| hypocotyls | हयपोक्तयल |
| hypo secretion | हाइपो स्राव |
| hypothalamus | हाइपोथेलेमस |
| hypothesis | परिकल्पना |
| hypothyroidism | हाइपोथायरायडिजम |
| hypotonic solution | हयपोटोनिक समाधान |
| | |
| I | |
| ibuprofen | इबुप्रोफेन |
| ICF (intercellular fluid) | आईसीएफ (इंटरसेल्युलर द्रव) |
| identical | एकसमान |
| identical twin | समरूप जड़वां |
| identity | पहचान |
| ileum | शेषान्त्र |
| illustrate | सचित्र व्याख्या करना |
| immigration | आप्रवासन |
| immune | प्रतिरक्षा |
| immune response | प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया |
| immune system | प्रतिरक्षा प्रणाली |
| immunity | रोग प्रतिरोधक शक्ति |
| inorganic | अजैविक |
| immunization | टीकाकरण |
| impact | प्रभाव |
| implantation | आरोपण |
| import | आयात |
| importation | आयात |
| imprint | छाप |
| impulse | आवेग |
| in vitro fertilization | टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन, इन विट्रो निषेचन |
| inappropriate | अनुपयुक्त |
| inborn immunity | जन्मजात प्रतिरक्षा |
| inbreeding | अंतःप्रजनन |
| incidence | घटना |
| incisors | कृन्तक |
| include | शामिल |
| incomplete dominance | अधूरा प्रभुत्व |

| English | Hindi |
|------------------------------------|---|
| incomplete protein | अधूरा प्रोटीन |
| increase | वृद्धि |
| incubation period | ऊष्मायन अवधि |
| independent (manipulated) variable | स्वतंत्र (प्रकलित) चर |
| independent assortment | स्वतंत्र वर्गीकरण |
| index fossil | इंडेक्स जीवाशम |
| indicate | संकेत मिलता है |
| indicator | सूचक |
| individual | व्यक्तिगत |
| industrial hazard | औद्योगिक खतरा |
| industrial melanism | औद्योगिक मेलेनिनता |
| industrialization | औद्योगीकरण |
| infantile paralysis | शिशु लकवा |
| infection | संक्रमण |
| infectious | संक्रामक |
| infer | तर्क करना |
| inference | निष्कर्ष |
| inferior vena cava | इन्फीरियर वेना केवा, पीठ वाले हिस्से में एक बड़ी नस |
| infinite | अनंत |
| inflammation | प्रदाह |
| inflammatory response | ज्वलनशील प्रतिक्रिया |
| influence | प्रभाव |
| ingestion | अन्तर्ग्रहण |
| inhibition center | निषेध केंद्र |
| inhalation | साँस लेना |
| inherit | वारिस |
| inheritance | विरासत |
| innate behavior | सहज व्यवहार |
| inorganic compound | अकार्बनिक यौगिक |
| insect | कीट |
| insecticide(s) | कीटनाशक |
| insectivorous plant | कीटभक्षी संयंत्र, कीटभक्षी पौधे |
| insert | डालें |
| inspect | निरीक्षण |
| inspiration | प्रेरणा स्रोत |

| English | Hindi |
|---------------------------|---|
| instinct | स्वाभाविक |
| insulin | इंसुलिन |
| interaction | बातचीत |
| interbreed(ing) | इन्टरब्रीड, जानवरों या पौधों विभिन्न जातियों और किस्मों के माता-पिता का उपयोग कर नस्ल बनाना |
| intercellular fluid | रक्षा करनेवाला द्रव |
| interference | हस्तक्षेप |
| interferon | इंटरफेरॉन |
| internal development | आंतरिक विकास |
| internal fertilization | आंतरिक निषेचन |
| internally | आंतरिक रूप से |
| interneuron | इंटरन्युरोन |
| interphase | अंतरावस्था |
| interspecific competition | एक जैसा प्रतियोगिता |
| intestinal juice | आंतों का रस |
| intestine | आंत |
| intracellular digestion | अंतर्कोशिकीय पाचन |
| introduce | परिचय कराना |
| intron | इंट्रॉन |
| invasion | आक्रमण |
| invasive species | आक्रामक प्रजातियां |
| inversion | पलटना |
| invertebrate | अक्षेत्रकी |
| investigation | अन्वेषण |
| involuntary muscle | अनैच्छिक पेशी |
| involve(ing) | शामिल (आईएनजी) |
| iodine | आयोडीन |
| ion | आयन |
| ionic bond | आयोनिक बंध |
| iron | लोहा |
| irradiation | विकिरण |
| irritability | चिड़चिड़ापन |
| islet of langerhans | लॅंगर्हस के आइलेट |
| isolated | पृथक |
| isotonic solution | आइソटोनिक समाधान |
| isotope | आइसोटोप |

| English | Hindi |
|------------------------|---------------------------------------|
| J | |
| jellyfish | जेलिफिश |
| joint | संयुक्त |
| juvenile hormone | किशोर हार्मोन |
| | |
| K | |
| karyotype | क्रूपोषण |
| karyotyping | करयोतयपिंग |
| kelp forest | कल्प फारेस्ट |
| keratin | केराटिन |
| kernels | गुठली |
| kidney | गुर्दा |
| kinetic energy | गतिज ऊर्जा |
| kingdom(s) | किंगडम (s) |
| Klinefelter's syndrome | क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम |
| knee joint | घुटने का जोड़ |
| knee-jerk reflex | नी-जर्क रिफ्लेक्स, घुटने का झटका पलटा |
| knowledge | ज्ञान |
| | |
| L | |
| labor | परिश्रम |
| laboratory | प्रयोगशाला |
| labyrinth | भूलभुलैया |
| lack | अभाव |
| lactase | लैक्टेस |
| lacteal | दूधिया |
| lactic acid | लैक्टिक एसिड |
| lactose | लैक्टोज |
| ladybug | एक प्रकार का गुबरैला, लेडीबग |
| lake | झील |
| lamarckism | लैमार्कवाद |
| lamella | लामेल्ला |
| lancet | नुकीला |
| landfill | गडडे |
| large intestine | बड़ी आँत |
| larva | लार्वा |

| English | Hindi |
|-------------------------------|----------------------------|
| larynx | कंठ |
| latitude | अक्षांश |
| law of dominance | प्रभुत्व का कानून |
| law of independent assortment | स्वतंत्र वर्गीकरण का कानून |
| law of segregation | अलगाव का कानून |
| law of use and disuse | उपयोग और अनुपयोग का कानून |
| laxative | जुलाब |
| layering | परत करना |
| loop of henle | लूप्स ऑफ हेनल |
| leaf sheath | पत्ती म्यान |
| leaflet | पत्रक |
| leaks | रिसाव |
| learning | सीख रहा हूँ |
| least | कम से कम |
| legume | फली |
| leguminous plant | फली का संयंत्र |
| lens | लैंस |
| leopard | तेंदुआ |
| leucine | लेउसन |
| leukemia | लेकिमिया |
| leukocyte | ल्युकोसाइट |
| lichen(s) | लाइकेन, कार्ड, दाढ़ |
| life cycle | जीवन चक्र |
| lifespan | जीवनकाल |
| ligament | अस्थिबंध |
| light microscope | प्रकाश सूक्ष्मदर्शी |
| light-dependent reaction | प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया |
| lily | लिली |
| limestone | चूना पत्थर |
| limit | हद |
| limiting factor(s) | सीमित करने वाले कारक |
| limiting nutrient | सीमित पोषक तत्व |
| litmus paper | लिटमस पेपर |
| linked gene | जुड़े जीन |
| lipase | लाइपेस |

| English | Hindi |
|--------------------------|-------------------------------|
| lipid | लिपिड |
| lipid bilayer | लिपिड बिलेयर |
| lithosphere | स्थलमंडल |
| liver | जिगर |
| livestock | पशु |
| lizard | छिपकली |
| lobster | केकड़ा |
| lock | ताला |
| lockjaw | जलबंधक |
| locomotion | स्वचालित यंत्र |
| log | लड्डा |
| logging | जमाव |
| logistic growth | तार्किक विकास |
| longitudinal muscle | लँबवत मांसपेशियों |
| louse | जूँ |
| lubricating oil | ग्रीस |
| luminescent | लुब्रिकेटिंग |
| lung | फेफड़ा |
| Luteinizing hormone (LH) | ल्यूटीनाइजिन्ग हार्मोन (एलएच) |
| lymph | लिम्फ, लसीका |
| lymph gland | लसिका ग्रंथि |
| lymph node | लसीका गांठ |
| lymph vessel | लसिका नली |
| lymphatic system | लसीका प्रणाली |
| lymphocyte | लिम्फोसाइट |
| lysosome | लाइसोसोम |
| M | |
| macroevolution | मैक्रो विकास |
| macromolecule | मैक्रो मोलेक्यूल |
| maggot | कीड़ा |
| magnification | आवर्धन |
| maintaining | बनाए रखने |
| malaria | मलेरिया |
| malathion | मेलाथियान |
| malfunction | खराबी |

| English | Hindi |
|------------------------------------|-----------------------|
| malignant | घातक |
| malnutrition | कुपोषण |
| maltase | माल्टेज़ |
| maltose | माल्टोज |
| mammal(s) | स्तनधारी जीव |
| mammary gland | स्तन ग्रंथि |
| manage | प्रबंधन |
| manageable | प्रबंधनीय |
| mane | अयाल |
| manipulated (independent) variable | प्रकलित स्वतंत्र चर |
| manufacturing | निर्माण |
| marine | समुद्री |
| marine biome | समुद्री बायोम |
| marrow | मज्जा |
| marsupial | धानी |
| mass | सामूहिक |
| mass extinction | सामूहिक विलोपन |
| mass number | जन संख्या |
| mate | दोस्त |
| material | सामग्री |
| maternal immunity | मातृ प्रतिरोधक क्षमता |
| melting | पिघलने |
| measles | खसरा |
| measurement | माप |
| mechanism | तंत्र |
| medulla oblongata | मज्जा ओब्लॉगता |
| meiosis | अर्धसूत्रण |
| melanin | मेलेनिन |
| melanocyte cell | मेलानोसाईट सेल |
| melt(ing) | पिघलना |
| membrane | झिल्ली |
| Mendelism | मेंडेलिस्म |
| meninges | तानिका |
| meningitis | मस्तिष्कावरण शोथ |
| meniscus | नवचंद्रक |

| English | Hindi |
|----------------------|------------------|
| menopause | रजोनिवृत्ति |
| menstrual cycle | मासिक धर्म |
| menstruation | माहवारी |
| mention | उल्लेख |
| mesentery | अन्तरेशी |
| mesoderm | मध्य त्वक स्तर |
| mesophyll | मेसोफिल |
| mesophyte | मिसोफिट |
| messenger RNA (mRNA) | मैसेंजर आरएनए |
| metabolic | चयापचय |
| metabolic waste | चयापचय अपशिष्ट |
| metabolism | चयापचय |
| metal | धातु |
| metamorphic rock | रूपांतरित चट्टान |
| metaphase | मेटाफेज़ |
| metastasis | रूप-परिवर्तन |
| method | तरीका |
| methylene blue | मेथिलीन ब्लू |
| metric ruler | मीट्रिक रूलर |
| metric system | मीट्रिक प्रणाली |
| microbe(s) | सूक्ष्म जीव |
| microclimate | माइक्रो जलवायु |
| micro dissection | माइक्रो विच्छेदन |
| microfilament | माइक्रोफिलमेंट |
| micrometer | माइक्रोमीटर |
| micronucleus | माइक्रोनुक्लेउस |
| microorganism | सूक्ष्मजीव |
| microscope | माइक्रोस्कोप |
| microscopic | माइक्रोस्कोपिक |
| microtubule | सूक्ष्मनलिका |
| midbrain | मध्यमस्तिष्क |
| migration | प्रवास |
| milk | दूध |
| milk tooth | दूध के दाँत |
| milligram | मिलीग्राम |

| English | Hindi |
|-----------------------|------------------------|
| milliliter | मिली लीटर |
| millimeter | मिलीमीटर |
| mimicry | नकल |
| mineral | खनिज |
| mitochondria | माइटोकॉन्ड्रिया |
| mitochondrion | माइटोकॉन्ड्रियन |
| mitosis | समसूत्रण |
| mitotic cell division | समसूत्री कोशिका विभाजन |
| mixture | मिश्रण |
| model | आदर्श |
| modification | संशोधन |
| molar | दाढ़ |
| mold | ढालना |
| molecular | आण्विक |
| molecular formula | आण्विक सूत्र |
| molecule(s) | अणु |
| Mollusca | मोलस्का |
| mollusk | मोलस्क |
| Monera | मोनेरा |
| monocotyledon | एकबीजपत्री |
| monocycle | मोनॉयकल |
| monohybrid cross | मोनोहाइब्रिड क्रॉस |
| monomer | एकल |
| monoploid | मोनोप्लॉइड |
| monosaccharide | मोनोसैकराइड |
| monoxide | मोनोऑक्साइड |
| morphine | अफ्रीम का सत्त्व |
| morphology | आकृति विज्ञान |
| mortality | मृत्यु-दर |
| morula | मोरुला |
| mosaic | मोज़ेक |
| mosquito | मच्छर |
| moss(es) | कार्ड |
| moth | कीट |
| motile | गतिशील |

| English | Hindi |
|---------------------------|----------------------------|
| motility | गतिशीलता |
| motor nerve | मोटर तंत्रिका |
| motor neuron | मोटर न्यूराँन |
| movement | आंदोलन |
| mucous membrane | श्लेष्मा झिल्ली |
| mucus | बलगम |
| multicellular | बहुकोशिकीय |
| multiple allele(s) | कई एलील |
| multiple birth | कई जन्म |
| multiple-gene inheritance | एकाधिक जीन विरासत |
| multiple | विभिन्न |
| multiply | गुणा करना |
| mumps | कण्ठमाला का रोग |
| muscle | मांसपेशी |
| muscle contraction | मांसपेशी में संकुचन |
| muscle fatigue | मांसपेशियों की थकान |
| muscular | मांसल |
| muscular system | मासपेशीय तंत्र |
| mushroom | मशरूम |
| mussel | एक प्रकार की कौड़ी |
| mutagen | उत्परिवर्तजन |
| mutagenic agent | उत्परिवर्तजन एजेंट |
| mutant | उत्परिवर्ती |
| mutate(d) | बदलना |
| mutation | उत्परिवर्तन |
| mutualism | पारस्परिक आश्रय |
| mycelia | मयसलिया |
| mycelium | कवकजाल |
| myelin sheath | माइलिन आवरण |
| myofibril | मयोफिब्रिल |
| myopia | निकट दृष्टि दोष |
| N | |
| narcotic drug | मादक दवा |
| nasal cavity | नाक गुहा |
| natural immunity | प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता |

| English | Hindi |
|---------------------------------|------------------------------------|
| natural selection | प्राकृतिक चयन |
| naturally | स्वाभाविक रूप से |
| nature and nurture controversy | प्रकृति और पोषण विवाद |
| nearby | समीप |
| nearsightedness | निकट दृष्टि |
| nectar | अमृत |
| negative feedback | नकारात्मक प्रतिक्रिया |
| negative | नकारात्मक |
| nematode | निमेटोड |
| nephron | नेफ्रॉन |
| nerve | नस |
| nerve cell (neuron) | तंत्रिका कोशिका (न्यूरॉन) |
| nerve cord | तंत्रिका तार |
| nerve fiber | तंत्रिका फाइबर |
| nerve impulse | तंत्रिका प्रभाव |
| nerve net | तंत्रिका जाल |
| nervous system | तंत्रिका प्रणाली |
| neural plate | तंत्रिका प्लेट |
| neurohormone (neurotransmitter) | न्यूरोट्रांसमोन (न्यूरोट्रांसमीटर) |
| neuromuscular junction | तंत्रिकापेशीय जोड़ |
| neuron | न्यूरॉन |
| neurotransmitter | न्यूरोट्रांसमीटर |
| neutral | निष्पक्ष |
| neutralization | निराकरण |
| neutron | न्यूट्रॉन |
| niche(s) | आला |
| nicotine | निकोटीन |
| night blindness | रत्तेंधी |
| nitrification | नाइट्रोकरण |
| nitrifying bacteria | निट्रोफाइंग बैक्टीरिया |
| nitrogen cycle | नाइट्रोजन साइक्ल |
| nitrogen fixation | नाइट्रोजन फिक्सेशन |
| nitrogen-fixing bacteria | नाइट्रोजन-फिक्सिंग बैक्टीरिया |
| nitrogenous | निट्रोजनौस |
| nitrogenous waste | नाइट्रोजन व्यर्थ |

| English | Hindi |
|-----------------------------|------------------------|
| nocturnal | निशाचर |
| node | आसंधि |
| nodule | गाठ |
| noise pollution | ध्वनि प्रदूषण |
| non-communicable | असंक्रामक |
| nondisjunction | गैर अलगाव |
| no placental mammal | नो पलेसेंटल मैमल |
| nonrenewable resources | नश्वर संसाधन |
| nonvascular plant | गैर संवहनी पौधा |
| noradrenaline | नोराड्रेनलाइन |
| nostril | नथुना |
| notochord | पृष्ठरज्जु |
| nourish | पोषण |
| nuclear fuel | नाभिकीय ईंधन |
| nuclear membrane (envelope) | परमाणु डिल्ली (लिफाफा) |
| nuclei | नाभिक |
| nucleic acids | न्यूक्लिक एसिड |
| nucleoli | नुक्लेओली |
| nucleolus | न्यूक्लियस |
| nucleotide | न्यूक्लियोटाइड |
| nurture | पोषण |
| numerous | अनागिनत |
| nutrient(s) | पोषक तत्त्व |
| nutrition | पोषण |
| nutritional | पोषक |
| nymph | अप्सरा |
| O | |
| objective | उद्देश्य |
| observation | अवलोकन |
| observe | निरीक्षण |
| obtain | प्राप्त |
| occasionally | कभी कभी |
| occur | घटित |
| octopus | अष्टबाहु |
| ocular | आंख का |

| English | Hindi |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| official | आधिकारिक |
| offset | ओफ्सेट |
| offspring | वंशज |
| olfaction | गंध |
| olfactory bulb | ओल्फैक्टरी बल्ब |
| olfactory cell | गंध सेल |
| omnivore | सर्वाहारी |
| oncogene | ऑंकोजीन (कैंसर से संबंधित) |
| one gene-one polypeptide hypothesis | एक जीन-एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना |
| ontogeny | व्यक्तिवृत्त |
| oocyst | संपुटित युग्मक |
| oocyte | डिम्बाणुजनकोशिका |
| oogenesis | उत्पादन या एक डिंब का विकास |
| open circulatory system | खुला परिसंचरण तंत्र |
| operon | ओपेरोन, डीएनए के खंड |
| opinion | राय |
| opium | अफ़ीम |
| opossum | ओपस्सम |
| opportunity | अवसर |
| optic nerve | नेत्र - संबंधी तंत्रिका |
| optical microscope | ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप |
| optimum | इष्टतम |
| order | आदेश |
| organ | अंग |
| organ system | अंग प्रणाली |
| organelle(s) | ऑर्गेनेल्स, एक सेल का विशेष हिस्सा |
| organic | जैविक |
| organic acid | कार्बनिक अम्ल |
| organic compound | कार्बनिक यौगिक |
| organism | ऑर्गनिजम, जीव |
| osmosis | निकट संपर्क का प्रभाव |
| osmotic potential | आसमाटिक संभावित |
| osmotic pressure | परासरण दाब |
| ossification | हड्डी बन जाना |
| osteoarthritis | अस्थि गठिया |

| English | Hindi |
|-----------------------------|--------------------------------|
| osteoblast | अस्थिकोरक |
| osteocyte | परिपक्व हड्डी सेल |
| osteology | अस्थि विज्ञान |
| osteoporosis | हड्डियों की कमजोरी |
| outbreeding | बाहर प्रजनन |
| ova | अंडाणु |
| ovaries | अंडाशय |
| ovary | अंडाशय |
| overall | संपूर्ण |
| overfishing | मछलियों का अत्यधिक पकड़ |
| overgraze | अधिक घास खाना |
| overproduction | अधिक उत्पादन |
| oviduct | डिंबवाहिनी |
| oviparity | अण्डजता |
| oviparous | अंडोत्पन्न |
| ovulation | डिंबोत्सर्जन |
| ovule | बीजाणु |
| ovum | डिंब |
| oxidation | ऑक्सीकरण |
| oxygen consumption | ऑक्सीजन की खपत |
| oxygen cycle | ऑक्सीजन चक्र |
| oxygen-carbon dioxide cycle | ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चक्र |
| oxyhemoglobin | ऑक्सीहीमोग्लोबिन |
| oyster | सीप |
| ozone | ओजोन |
| ozone layer | ओजोन परत |
| ozone shield | ओजोन कवच |
| P | |
| pacemaker | पेसमेकर |
| paired | जोड़ा |
| Paleozoic | पैलियोज़ोइक |
| palisade mesophyll | खम्मों की पंक्ति पर्याप्त्यक |
| pancreas | अग्न्याशय |
| pancreatic duct | अग्नाशय वाहिनी |
| pancreatic juice | अग्नाशय रस |

| English | Hindi |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| paramecium | परमेसउम |
| parasite | परजीवी |
| parasitic relationship | परजीवी संबंध |
| parasitism | परजीवीतता |
| parasympathetic nervous system (PNS) | तंत्रिका तंत्र |
| parathyroid hormone | पैराथाएरोएड हार्मोन |
| parent cell | माता - पिता सेल |
| parent generation | माता-पिता पीढ़ी |
| parental care | माता पिता द्वारा देखभाल |
| parietal lobe | पाश्वक भाग |
| parrot | तोता |
| Parthenogenesis | अनिषेक जनन |
| partial | आंशिक |
| particular | विशेष |
| passive immunity | निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता |
| passive transport | निष्क्रिय परिवहन |
| pasteurization | निष्कीटन |
| patella | चपनी |
| pathogen(s) | रोगजनक |
| pathogenic | रोगजनक |
| peat | नरम कोयला |
| pedigree | वंशावली |
| pedigree chart | वंशावली चार्ट |
| peer review | सहकर्मी समीक्षा |
| pellagra | एक रोग जिस में चमड़ा फट जाता है |
| pelvis | पेंडु |
| penicillin | पेनिसिलिन |
| penis | लिंग |
| pepsin | पित्त का एक प्रधान अंश |
| peptic ulcer | पेप्टिक अल्सर |
| peptidase | पेप्टिडेज़ |
| peptide bond | पेप्टाइड बंधन |
| percentage | प्रतिशत |
| perennial | चिरस्थायी |
| perform | प्रदर्शन |

| English | Hindi |
|---------------------------|------------------------------|
| pericardium | पेरीकार्डियम |
| period | अवधि |
| peripheral nervous system | परिधीय नर्वस प्रणाली |
| peristalsis | क्रमांकन |
| permafrost | स्थायी रूप जमी हुई जमीन |
| permeable | पारगम्य |
| permit | अनुमति |
| perspiration | पसीना |
| pest | कीट |
| pesticide(s) | कीटनाशक |
| petal | पत्ती |
| petri dish | पेट्री डिश |
| petrifaction | पथराहट |
| pH indicator | पीएच सूचक |
| pH scale | पीएच पैमाना |
| phagocyte | भक्षककोशिकीय |
| phagocytosis | फैगोसाइटॉसिस |
| pharynx | ग्रसनी |
| phase contrast microscope | फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप |
| phenol | फिनोल |
| phenotype | फेनोटाइप |
| phenylalanine | फेनिलएलानिन |
| phenylketonuria(PKU) | चयापचय की एक आनुवांशिक विकार |
| pheromone | फेरोमोन |
| phloem | फ्लोएम |
| phosphate | फॉस्फेट |
| phospholipid | फॉस्फोलिपिड |
| phosphorus | फास्फोरस |
| phosphorylation | फोस्फोराइलेशन |
| photic zone | रोशनी का क्षेत्र |
| photolysis | प्रकाश-अपघटन |
| photon | प्रकाशाण |
| photosynthesis | प्रकाश संश्लेषण |
| phototropism | फोटोट्रोपिस्म |
| phylum | संघ |

| English | Hindi |
|---------------------|--|
| physical | भौतिक |
| physiology | शरीर क्रिया विज्ञान |
| physiotherapy | भौतिक चिकित्सा |
| phytoplankton | पादप प्लवक |
| pigment | रंगद्रव्य |
| pill | गोली |
| pimple | फुँसी |
| pineal | शंकुधर, चीटीदार |
| pineal body | चीटीदार शरीर |
| pinocytosis | पिनॉयटोसिस |
| pioneer | अग्रणी |
| pioneer species | अग्रणी प्रजातियां |
| pistil | पुष्प-योनि |
| pituitary dwarfism | पिट्यूटरी बौनापन |
| pituitary gland | पीयूष ग्रंथि |
| placenta | गर्भनाल |
| placental mammal | नाल स्तनपायी |
| placental membranes | गर्भनालीय डिल्ली |
| plague | प्लेग |
| plankton | प्लवक |
| plant | पौधा |
| plasma | प्लाज्मा |
| plasma membrane | प्लाज्मा डिल्ली |
| plasmid | एक सेल में एक आनुवंशिक संरचना |
| plasmolysis | प्लास्मोलीसिस |
| plastid | प्लास्टाइड, छोटे अंगों के एक वर्ग के किसी भी |
| platelet | बिंबाणु |
| Platyhelminthes | पृथुकूमि |
| pleura | फुस्फुस का आवरण |
| pleural cavity | फुफ्फुस गुहा |
| plexus | जाल |
| pneumonia | निमोनिया |
| poaching | अवैध शिकार |
| point mutation | बिंदु उत्परिवर्तन |
| poisonous | विषैला |

| English | Hindi |
|--------------------------------|---------------------------|
| polar zone | ध्रुवीय क्षेत्र |
| pole | खंभा |
| polio | पोलियो |
| pollen grain | पराग कण |
| pollen tube | पराग नली |
| pollination | परागण |
| pollutant | प्रदूषक |
| pollution | प्रदूषण |
| polygenic | बहुविधि |
| Polygenic traits | बहुविधि गुण |
| polymer | बहुलक |
| Polymerase chain reaction(PCR) | पोलीमरेज़ चेन प्रतिक्रिया |
| polymorphism | बहुरूपता |
| polyp | नाकड़ा |
| polypeptide | पॉलीपेप्टाइड |
| polyploidy | पोलीप्लॉइडी, बहु गुणित |
| polysaccharide | पोल्यसच्चराइड |
| pond | तालाब |
| population | आबादी |
| population density | जनसंख्या घनत्व |
| population genetics | जनसंख्या आनुवंशिकी |
| positive feedback | सकारात्मक प्रतिक्रिया |
| posterior | पीछे |
| potential | क्षमता |
| pouched mammal | थैलीदार स्तनधारी जीव |
| precipitation | बहुत नम |
| predation | शिकार |
| predator | शिकारी |
| predator-prey relationship | शिकारी शिकार संबंध |
| predatory | मांसभक्षी |
| predict | भविष्यवाणी |
| prediction | भविष्यवाणी |
| pregnancy | गर्भावस्था |
| premature birth | समय से पहले जन्म |
| prepare | तैयार करना |

| English | Hindi |
|----------------------|---|
| present-day | वर्तमान |
| preserve | संरक्षित |
| prevent | रोकना |
| prevention | निवारण |
| prey | शिकार |
| primarily | मुख्य रूप से |
| primary consumer | प्राथमिक उपभोक्ता |
| primary productivity | प्राथमिक उत्पादकता |
| primary root | प्राथमिक जड़ |
| primary succession | प्राथमिक उत्तराधिकार |
| primate | रहनुमा, नेता |
| probability | संभावना |
| procedure | कार्यविधि |
| process | प्रक्रिया |
| producer | उत्पादक |
| product | उत्पाद |
| progesterone | प्रोजेस्टेरोन |
| prohibit | निषेध |
| prokaryote | अकेन्द्रिक |
| promoter | प्रवर्तक |
| property | संपत्ति |
| prophase | भविष्यवाणी |
| proportion | अनुपात |
| proposal | प्रस्ताव |
| prostaglandin | प्रोस्टाग्लैंडीन |
| prostate gland | प्रोस्टेट ग्रंथि |
| protease | प्रोटीज |
| protect | रक्षा करना |
| protein | प्रोटीन |
| prothrombin | प्रोथ्रोम्बिन |
| proton | प्रोटॉन |
| protoplasm | वनस्पति तथा प्राणियों के जीवन का आधार जीवद्रव्य |
| protozoan | एककोशी जीव |
| provide(d) | प्रदान |
| pseudopod | कूटपाद |
| psychosis | मनोविकृति |

| English | Hindi |
|------------------------|---|
| ptyalin | ट्यालिन |
| puberty | यौवन |
| pulmonary artery | फेफड़े के धमनी |
| pulmonary circulation | फेफड़े के संचलन |
| pulmonary vein | फेफड़े की नस |
| pulp | गूदा |
| pulse | नब्ज |
| punctuated equilibrium | संतुलन अवरोध |
| pupa | कोषस्थ कीट |
| pupil | छात्र |
| pure | शुद्ध |
| pure dominant | स्पष्ट प्रभावी |
| pure recessive | स्पष्ट हटने |
| purine | प्यूरीन |
| purple | बैंगनी |
| pus | मवाद |
| pyloric sphincter | जठरनिर्गम संकोचक पेशी |
| pyramid | पिरामिड |
| pyramid of biomass | बायोमास पिरामिड |
| pyramid of energy | ऊर्जा के पिरामिड |
| pyrimidine | बुनियादी गुणों के साथ एक रंगहीन क्रिस्टलीय यौगिक। |
| pyruvic acid | पाइरुविक तेजाब |
| Q | |
| qualitative | गुणात्मक |
| quality | गुणवत्ता |
| quantitative | मात्रात्मक |
| quarantine | कोरांटीन |
| quinine | कुनेन की दवा |
| quotation | उद्धरण |
| R | |
| radial symmetry | रेडियल समरूपता |
| radiant energy | विकिरण ऊर्जा |
| radiation | विकिरण |
| radiation | विकिरण |

| English | Hindi |
|--------------------------------|-------------------------------|
| radicle | मूलसिद्धांत |
| radioactive | रेडियोएक्टिव |
| radioactive dating | रेडियोएक्टिव डेटिंग |
| radioactive element | रेडियोएक्टिव तत्व |
| radio-carbon method | रेडियो कार्बन विधि |
| radiotherapy | रेडियोथेरेपी |
| radius | त्रिज्या |
| ragweed | रगवीद |
| random | बेतरतीब |
| rapidly | तेजी से |
| reabsorption | पुनःअवशोषण |
| reactant | अभिकारक |
| reaction rate | प्रतिक्रिया दर |
| recently | हाल ही में |
| receptacle | ग्रहणशील |
| receptor | ग्रहणशील अणु |
| receptor molecule(s) | ग्रहणशील अणु |
| recessive | पीछे हटने का |
| recessive gene | पीछे हटने का जीन |
| recombinant DNA | पुनर्योगज डीएनए |
| recombination | पुनर्संयोजन |
| recombination gamete | पुनर्संयोजन युग्मक |
| record | अभिलेख |
| recover | उबरना, ठीक होना |
| rectum | गुदा |
| recycle | पुनरावृत्ति |
| recycling | रीसाइक्लिंग, पुनरावृत्ति |
| red blood cell | लाल रक्त कोशिकाएं |
| red corpuscle (red blood cell) | लाल कणिका (लाल रक्त कोशिका) |
| reduced | कम किया हुआ |
| reduction | कमी |
| reduction division (meiosis) | कमी प्रभाग (अर्धसूत्रीविभाजन) |
| reflex | पलटा हुआ |
| reflex arc | पलटा चाप |
| reflex center | पलटा हुआ केंद्र |
| reforestation | पुनर्वनरोपण |

| English | Hindi |
|------------------------|---------------------|
| refractory period | दुर्दम्य अवधि |
| refute | खंडन |
| regeneration | उत्थान |
| regular | नियमित |
| regulated | नियंत्रित किया |
| regulation | नियमन |
| related | सम्बंधित |
| relationship | संबंध |
| relative dating | सापेक्ष डेटिंग |
| release | रिहाई |
| reliable | विश्वसनीय |
| rely on | पर निर्भर |
| remain | रहना |
| remote | दूरस्थ |
| renal artery | गुर्दे की धमनी |
| renal circulation | गुर्दे का संचलन |
| renal portal vein | गुर्दे पोर्टल नस |
| renal vein | गुर्दे की नस |
| renewable | नवीकरणीय |
| renewable resource(s) | अक्षय स्रोत (ओं) |
| rennin | रेनिन |
| replicate | दोहराना |
| replication | प्रतिकृति |
| represent | प्रतिनिधित्व |
| reproduce | फिर से उत्पादन |
| reproduction | पुनरुत्पादन |
| reproductive isolation | प्रजनन अलगाव |
| reptile | रेंगनेवाला |
| require | आवश्यकता |
| research plan | शोध योजना |
| researcher | शोधकर्ता |
| resemble | समान |
| residue | अवशेष |
| resistance | प्रतिरोध |
| resource(s) | संसाधन |
| resources management | संसाधनों का प्रबंधन |
| respiration | श्वसन |
| respiratory chain | श्वसन श्रृंखला |
| respiratory surface | श्वसन सतह |

| English | Hindi |
|------------------------------|---------------------------|
| respiratory tract | श्वसन तंत्र |
| response | प्रतिक्रिया |
| resting potential | विश्राम क्षमता |
| resting stage (interphase) | आराम चरण (अंतरावस्था) |
| restriction enzyme | प्रतिबंध एंजाइम |
| result | परिणाम |
| reticulum | आमाशय |
| retina | रेटिना |
| retrovirus | रेट्रोवायरस |
| Rh negative blood | आरएच निगेटिव रक्त |
| Rh positive blood | आरएच पॉजिटिव खून |
| Rhesus factor (Rh factor) | रेसस कारक (आरएच फैक्टर) |
| rheumatic fever | आमवाती बुखार |
| rheumatoid arthritis | संधिशोथ गठिया |
| rhizoid | रहिजोद |
| rhizome | कंद |
| rib | पसली |
| rib cage | पिंजर |
| riboflavin | राइबोफ्लेविन |
| ribonucleic acid (RNA) | रिबोनुक्लेस एसिड |
| ribose | राइबोज़ |
| ribosomal RNA | राइबोसोमल RNA |
| ribosome(s) | राइबोसोम (s) |
| rickets | सूखा रोग |
| ringing | घंटी बज रही |
| ringworm | दाद |
| rip | चीर |
| ripped | चीर डाला |
| risk | जोखिम |
| RNA polymerase | आरएनए पोलीमरेज़ |
| roach | एक प्रकार की मछली |
| Rocky mountain spotted fever | रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर |
| rodent | कृतक |
| root | जड़ |
| root hair | बालों की जड़ |
| root module | जड़ मॉड्यूल |
| root pressure | जड़ दबाव |
| rotation of crops | फसलों का रोटेशन |
| roughage | चारा, प्रलोभन |

| English | Hindi |
|-------------------|---------------------------------------|
| roundworm | राउंडवॉर्म |
| routine | दिनचर्या |
| rubella | रुबेला |
| rudimentary organ | अल्पविकसित अंग |
| ruminant | जुगाली करनेवाला, मननशील |
| runner | धावक |
| | |
| S | |
| Sabin vaccine | सबिन टीका |
| saccharide | सैकराइड |
| saccharin | साकारीन |
| salamander | समन्दर, आग की त्रीड़ा |
| saline | खारा |
| salinity | लवणता, खारापन |
| saliva | लार |
| salivary amylase | लार एमिलेज |
| salivary gland | लार ग्रंथि |
| Salk vaccine | सॉल्क टीका |
| salmon | एक प्रकार की मछली, सैल्मन |
| salmonella | साल्मोनेला |
| salt marsh | खार |
| salt water | खारा पानी |
| sample | नमूना |
| sand | रेत |
| sandy soil | रेतीली मिट्टी |
| sanitary | स्वच्छता |
| sap | पौधों का रस |
| saprophyte | सड़ी हुई वनस्पति पर जीनेवाला पौधा |
| saturated fats | संतृप्त वसा |
| scale | स्तर |
| scallop | घोंघा, एक प्रकार की सीप |
| scarcity | कमी |
| scavenger | मुर्दाखोर, कूड़े में भोजन ढूँढने वाला |
| schizophrenia | एक प्रकार का पागलपन |
| Schwann's cell | सच्वन्न'स सेल |
| science | विज्ञान |
| scientific method | वैज्ञानिक पद्धति |
| scientific theory | वैज्ञानिक सिद्धांत |
| scientist | वैज्ञानिक |

| English | Hindi |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| scion | वंशज, नवपल्लव |
| sclera | श्वेतपटल |
| sclereid | स्क्लेरेद |
| sclerosis | काठिन्य, कठोरता |
| scorpion | बिचूँ |
| scrotum | अंडकोश की थैली |
| scurvy | अशिष्ट, एक प्रकार का रक्तरोग |
| sea anemone | समुद्री एनिमोन |
| sea cucumber | समुद्र ककड़ी |
| sea urchin | समुद्री साही |
| seal | सील, मुहर |
| sebaceous gland | वसामय ग्रंथि |
| sebum | त्वचसा |
| second filial generation | दूसरी पीढ़ी संतानीय |
| secondary consumer | माध्यमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता |
| secondary mycelium | माध्यमिक कवकजाल |
| secondary sexual character, ristics | माध्यमिक यौन विशेषताओं |
| secondary succession | द्वितीयक उत्तराधिकार |
| secretin | सेक्रेटिन, स्राव |
| secretion | स्राव |
| sedimentary strata | अवसादी तबके |
| seed | बीज |
| seed dispersal | बीज प्रसार |
| seep out | झाड़ना, बाहर रिसना |
| segment | खंड |
| segregation | अलगाव |
| selection | चयन |
| selective breeding | चयनात्मक प्रजनन |
| selective permeability | चयनात्मक पारगम्यता |
| selective permeable membrane | चयनात्मक पारगम्य झिल्ली |
| self-fertilization | स्व-निषेचन |
| self-pollination | खुद-पीलीनेशन |
| semen | वीर्य |
| semicircular canal | सेमिसरकलर कैनाल, अर्धवृत्ताकार नहर |
| semicircular valve | अर्धवृत्ताकार वाल्व |
| seminal vesicle | शुक्राणु पुटिका |
| seminiferous tubule | बीजदार छोटी नली |
| semipermeable membrane | अर्धपारगम्य झिल्ली |
| sensitivity | संवेदनशीलता |

| English | Hindi |
|-------------------------------|------------------------------------|
| sensitization | संवेदीकरण |
| sensor | नियंत्रक, संवेदक |
| sensory area | संवेदी क्षेत्र |
| sensory nerve fiber | संवेदी तंत्रिका फाइबर |
| sensory neuron | संवेदक स्नायु |
| sensory receptor | संवेदी रिसेप्टर, संवेदी प्रापक |
| separate | अलग |
| septum | पट, झिल्ली |
| sequence(s) | अनुक्रम (ओं) |
| series | श्रृंखला |
| serum | टीका, रस |
| served as | के रूप में कार्य किया |
| sessile | बिना डंठल का, अवृन्त |
| setup | व्यवस्था |
| sewage | मलजल प्रणाली |
| sex cell | यौन सेल |
| sex chromosome | लिंग गुणसूत्र |
| sex hormone | सेक्स हार्मोन |
| sex organ | यौन अंग, जननेंद्रिय |
| sex-linkage inheritance | लिंग आधारित संबंध विरासत |
| sex-linked gene | लिंग आधारित जीन |
| sex-linked trait | लिंग आधारित विशेषता |
| sexual | यौन |
| sexual generation | यौन पीढ़ी |
| sexual maturity | यौन परिपक्वता |
| sexual reproduction | यौन प्रजनन |
| sexually transmitted diseases | यौन संचारित रोग |
| shark | शार्क |
| shore | किनारा |
| shortsightedness | अदूरदर्शिता |
| shoulder joint | कंधे का जोड़ |
| shrub(s) | झाड़ी |
| Siamese twin | स्याम देश जुड़वां, संयुक्त जुड़वाँ |
| sibling(s) | एक माँ की संतानें) |
| sickle cell | सिक्कल कोशिका, दरांती सेल |
| sickle cell anemia | सिक्कल सेल एनीमिया |
| side effect | दुष्प्रभाव |
| significance | महत्व |
| simple microscope | सरल माइक्रोस्कोप |

| English | Hindi |
|-------------------------------|---------------------------|
| simple reflex action | सरल पलटा कार्रवाई |
| simple sugar (monosaccharide) | साधारण चीनी (मोनोसैकराइड) |
| single circulation | एकल संचलन |
| single-gene trait | एकल जीन विशेषता |
| Sino-atrial node (S-A node) | सिनोट्रायल नोड (एस-ए नोड) |
| sinus | साइनस, शिरानाल |
| siphon | नाली |
| site | साइट, जगह |
| skeletal muscle | कंकालीय मांसपेशी |
| skeletal system | कंकाल प्रणाली |
| skeleton | कंकाल |
| sketch | रेखाचित्र |
| skin | त्वचा, खाल |
| skull | खोपड़ी, कपाल |
| sleeping sickness | नींद की बीमारी |
| slide | फिसल पट्टी, स्लाइड |
| sludge | कीचड़ |
| small intestine | छोटी आंत |
| smallpox | चेचक |
| smog | धुंध |
| smooth muscle | कोमल मांसपेशियाँ |
| sneezing reflex | स्नीजिंग रिफ्लेक्स |
| soak | भिगोना |
| soda | सोडा |
| sodium | सोडियम |
| sodium bicarbonate | सोडियम बाइकार्बोनेट |
| sodium chloride | सोडियम क्लोराइड |
| sodium ion | सोडियम आयन |
| soil | मिट्टी |
| soil conservation | मृदा संरक्षण |
| soil depletion | मिट्टी कमी |
| soil erosion | मृदा अपरदन |
| solar energy | सौर ऊर्जा |
| solid bone | ठोस हड्डी |
| solute | घुला हुआ |
| solution | समाधान |
| solvent | विलायक |
| somatic | दैहिक |
| somatic cell | दैहिक कोशिका |

| English | Hindi |
|-------------------------------|------------------------|
| somatic nervous system | दैहिक तंत्रिका प्रणाली |
| soot | कालिख |
| sort | प्रकार |
| source | स्रोत |
| specialized | विशिष्ट |
| speciation | प्रजातिकरण |
| species | प्रजाति |
| species diversity | प्रजातीय विविधता |
| specific | विशिष्ट |
| specificity | विशिष्टता |
| specimen | नमूना |
| spectacular | शानदार |
| spectrum | वर्णक्रम, रंगावली |
| sperm | शुक्राणु |
| sperm duct | शुक्राणु वाहिनी |
| sperm nuclei | शुक्राणु नाभिक |
| spermatid | स्पेर्मातिद |
| spermatocyte | सपर्मटॉयटे |
| spermatogenesis | शुक्राणुजनन |
| spermatophyte | पुष्पोद्धिद |
| sphincter | दबानेवाला यंत्र |
| spike | कील |
| spill | छलकन |
| spinal column | रीढ़ की हड्डी कॉलम |
| spinal cord | मेरुदण्ड |
| spinal nerve | रीढ़ की हड्डी तंत्रिका |
| spindle | तकला, धुरा |
| spindle fiber | धुरी फाइबर |
| spleen | तिल्ली |
| splice | रस्से का जोड़, सांठना |
| splits | विभक्त करता |
| sponge | स्पंज |
| sponge bone | स्पंजी हड्डी |
| spongy layer | स्पंजी परत |
| spongy mesophyll | स्पंजी पर्णमध्यक |
| spongy tissue | स्पंजी ऊतक |
| spontaneous generation theory | सहज पीढ़ी सिद्धांत |
| spontaneous mutation | सहज उत्परिवर्तन |
| sporangium | बीजाणुधानी |

| English | Hindi |
|-----------------------|-------------------|
| spore | बीजाणु |
| spore reproduction | बीजाणु प्रजनन |
| sporophyte generation | स्पोरोपिटे जनरेशन |
| sporulation | स्पोर्लशन |
| spot | स्थान |
| sprain | मोच |
| spray | फुहार |
| sputum | थूक |
| square | वर्ग |
| squid | विद्रूप |
| stability | स्थिरता |
| stable | स्थिर |
| stain | दाग |
| staining | धुंधला हो जाना |
| stalk | डंठल |
| stamen | पराग |
| staminate flower | सतमिनते फ्लावर |
| staphylococcus | सतपिलोकक्कुस |
| starch | स्टार्च |
| starfish | स्टारफिश |
| statement | बयान |
| steady state | स्थिर अवस्था |
| stem | तना |
| stereomicroscope | स्टेरोमिक्रोस्कोप |
| stereoscope | त्रिविमदर्शी |
| sterile | बाँझ |
| sterility | बाँझपन |
| sterilization | कीटाणुशोधन |
| sterilizing | जीवाणुनाशक |
| sternum | उरोस्थि |
| steroid | स्टेरॉयड |
| stethoscope | स्टेथोस्कोप |
| stigma | कलंक |
| stimulate | प्रोत्साहित करना |
| stimuli | उत्तेजनाओं |
| stimulus | उत्तेजन |
| stinging cell | चुभने वाले सेल |
| stock | भण्डार |
| stolon | भूस्तरी |

| English | Hindi |
|-------------------------|-------------------------------|
| stomach | पेट |
| stomata (stoma) | रंध्र (रंध्र) |
| stops | रोकता है |
| storage | भंडारण |
| storage tissue | भंडार ऊतक |
| strains | उपभेद |
| strand | किनारा |
| stream | धारा |
| streptococcus | स्ट्रैपटोकोकस |
| streptomycin | स्ट्रेप्टोमाइसिन |
| striated muscle | धारीदार पेशी |
| strip | पट्टी |
| strip cropping | स्ट्रिप खेती |
| stroma | स्ट्रोमा |
| structural formula | संरचनात्मक सूत्र |
| structure | संरचना |
| style | शैली |
| subsoil | भूमिगत |
| subspecies | उप प्रजातियां |
| substance | पदार्थ |
| substrate | अधःस्तर |
| succession | उत्तराधिकार |
| sucker | चूसने वाला, एक प्रकार की मछली |
| sucrase | सुक्रासे |
| sucrose | सुक्रोज |
| suction pressure | सक्षण दबाव |
| sulfa drug | सल्फा दवा |
| sulfur | गंधक |
| sulfur dioxide | सल्फर डाइऑक्साइड |
| superior vena cava | प्रधान वेना कावा |
| surface tension | सतह तनाव |
| surgery | शल्य-चिकित्सा |
| surrogate parent | सरोगेट अभिभावक |
| surround | चारों ओर |
| survival | अस्तित्व |
| survival of the fittest | योग्यतम की उत्तरजीविता |
| survive(d) | बच जाना |
| suspension | निलंबन |
| sustainable use | सतत उपयोग |

| English | Hindi |
|----------------------------|--|
| suture | टांका |
| swamp | दलदल |
| sweet gland | पसीने की गंथि |
| swim-bladder | स्विम ब्लैडर |
| symbiosis | सहजीवन |
| symbiotic | सहजीवी |
| sympathetic | सहानुभूतिपूर्ण |
| sympathetic nervous system | सहानुभूति तंत्रिका तंत्र |
| symptom | लक्षण |
| synapse | अन्तर्ग्रथन |
| synthesis | संश्लेषण |
| synthesize | संश्लेषण द्वारा (कुछ) बनाना, विशेष रूप से रासायनिक |
| synthetic circulation | सिंथेटिक परिसंचरण |
| systole | धमनी का संकुचन |
| systolic pressure | सिस्टोलिक दबाव |
| T | |
| tadpole | मैंडक का बच्चा |
| taiga | टैगा |
| tail fin | टेल फिन |
| tanker | टैंकर |
| tap root | टैंकर |
| tapeworm | टप रुट |
| tar | टैपवार्म |
| taste bud | स्वाद तंतु |
| taxonomy | वर्गीकरण |
| Tay-Sachs disease | तय-सचस डिजीज |
| technique | तकनीक |
| technology | प्रौद्योगिकी |
| telophase | टीलोफेज |
| temperate deciduous forest | समशीतोष्ण पर्णपाती वन |
| temperate zone | समशीतोष्ण क्षेत्र |
| temperate inversion | तापमान उलटा |
| template | टेम्पलेट |
| tend to | प्रवृत्त |
| tendon | पट्टा |

| English | Hindi |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| tentacle | स्पर्शक |
| terminal bud | टर्मिनल बड़ |
| termite | दीमक |
| terrace | छत |
| terrestrial | स्थलीय |
| terrestrial biome | स्थलीय बायोम |
| territory | क्षेत्र |
| test cross | परीक्षण पार |
| testis | वृषण |
| testosterone | वृषाणि |
| tetanus | टिटनेस |
| tetrad | ततरद |
| tetraploid | टेट्राप्लोइड |
| thalassemia | थैलेसीमिया |
| theory | सिद्धांत |
| theory of use and disuse | उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत |
| therapy | उपचार |
| thermal pollution | ऊष्मीय प्रदूषण |
| thicker | मोटा |
| third-level consumer | तृतीय स्तर उपभोक्ता |
| thoracic duct | वक्ष वाहिनी |
| thorax | वक्ष |
| threshold | डेवढी, दहलीज |
| thrombin | थ्रोम्बिन |
| thromboplastin | थ्रोम्बोप्लास्टिन |
| thrombosis | घनास्त्रता, थ्रोम्बोसिस |
| thrombus | थक्का |
| thymine | थाइमिन |
| thymus gland | थाइमस ग्रंथि |
| thyroid gland | थाइरॉयड ग्रंथि |
| thyroid-stimulating hormone (TSH) | थायराइड उत्तेजक हार्मोन (टीएसएच) |
| thyroxine | थायरोक्सिन |
| tibia | अन्तःप्रकोष्ठिका |
| tissue culture | ऊतक संवर्धन |
| tissue fluid | ऊतक द्रव |
| tissue(s) | ऊतक (s) |
| tobacco | तंबाकू |
| ton | टन |

| English | Hindi |
|----------------------|------------------------|
| tongue rolling | जीभ रोलिंग |
| tonsil | गलतुंडिका |
| tonsillitis | टॉन्सिल सूजना |
| tooth decay | दांत की सड़न |
| tooth root | दांत की जड़ |
| toothpick | दंतखोदनी |
| topsoil | मिट्टी के ऊपर परत |
| toxic | विषाक्त |
| toxin(s) | विष |
| trace element | तत्व का पता लगाएं |
| trachea | ट्रेकिआ |
| tracheophyte | तरकोपिते |
| trade-off | अदला - बदली |
| traffic | यातायात |
| trait(s) | विशेषता (s) |
| transcription | प्रतिलिपि |
| transduction | संक्रमण |
| transfer | स्थानांतरण |
| transfer RNA (t RNA) | हस्तांतरण (RNA) (tRNA) |
| transformation | परिवर्तन |
| transfusion | आधान |
| transgenic | ट्रांसजेनिक |
| translation | अनुवाद |
| transmission | हस्तांतरण |
| transmit | संचारित |
| transpiration | वाष्पोत्सर्जन |
| transpiration pull | वाष्पोत्सर्जन पुल |
| transplant | प्रत्यारोपण |
| transport system | परिवहन व्यवस्था |
| transverse colon | अनुप्रस्थ बृहदान्त्र |
| transverse section | अनुप्रस्थ अनुभाग |
| trauma | आघात |
| treatment | इलाज |
| treat | उपचार करें |
| trend | रुझान |
| trial | परीक्षण |
| triceps | ट्राइसेप्स |
| trilobite | त्रिलोबिटे |
| translocation | अनुवादन |

| English | Hindi |
|----------------------|--|
| triple-beam balance | ट्रिपल बीम संतुलन |
| triplet code | त्रिक कोड |
| triploid | ट्रिप्लॉइड |
| trophic level | पौष्टिकता स्तर |
| tropical rain forest | उष्णकटिबंधीय वर्षावन |
| tropical zone | उष्णकटिबंधीय क्षेत्र |
| tropism | एक बाहरी उत्तेजना के जवाब में सभी या एक विशेष दिशा में एक जीव के हिस्से के मोड़ |
| trypsin | ट्रिप्सिन |
| tuber | कंद |
| tuberculosis | तपेदिक |
| tubing | ट्यूबिंग, नली-निर्माण |
| tubule | छोटी नलिका |
| tumor | ट्यूमर |
| tundra | टुंड्रा |
| turbidity | मैलापन |
| turgid | सूजा हुआ |
| turgor pressure | तुर्गिंद प्रेशर |
| Turner's syndrome | टर्नर सिंड्रोम |
| typhoid | आंत्र ज्वर, टायफ़ायड |
| U | |
| ulcer | व्रण/ अल्सर |
| ulna | कुहनी की हड्डी |
| ultracentrifuge | दुत अपकेन्द्रित |
| ultrafiltration | छानने का काम एक मध्यम ठीक कण, वायरस, या बड़े अणुओं को बनाए रखने के लिए पर्याप्त का उपयोग कर। |
| ultrasound | पराध्वनिक चित्रण/ अल्ट्रासाउंड |
| ultraviolet light | पराबैग्नी प्रकाश |
| umbilical cord | गर्भनाल |
| umbilicus | नाभि |
| undergo | गुजरना |
| unicellular | एक कोशिकीय |
| universal recipient | सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता |
| unsaturated fats | असंतृप्त वसा |
| uracil | एक यौगिक आर एन ए के एक घटक के आधार के रूप में जीवित ऊतक में पाया जाने वाला। डीएनए में अपनी जगह थाइमिन द्वारा लिया जाता है। |
| uranium | यूरेनियम |

| English | Hindi |
|-------------------|---|
| urban desert | नगरीय रेगिस्तान |
| urbanization | शहरीकरण |
| urea | यूरिया |
| urease | एक एंजाइम है कि अमोनियम कार्बोनेट को यूरिया में बदलता है, बैक्टीरिया में होने वाली कवक, आदि |
| ureter | मूत्रवाहिनी |
| urethra | मूत्रमार्ग |
| uric acid | यूरिक अम्ल |
| urinary bladder | मूत्राशय |
| urinary system | मूत्र प्रणाली |
| urine | मूत्र |
| uterine lining | गर्भाशय परत |
| uterus | गर्भाशय |
| utilize | उपयोग |
| V | |
| vacant | खाली |
| vaccinated | टीका लगाया |
| vaccination | टीकाकरण |
| vaccine | टीका |
| vacuole(s) | रिक्तिका (s) |
| vagina | योनि |
| valid | मान्य |
| valine | आवश्यक अमीनो एसिड, प्रोटीन का एक घटक |
| valuable | मूल्यवान |
| valve | वाल्व |
| vane | फलक |
| variability | परिवर्तनशीलता |
| variable | परिवर्तनशील, चर |
| variable factor | चर कारक |
| variation | भिन्नता |
| variegated leaf | विचित्र पत्ता |
| variety | विविधता |
| various | विभिन्न |
| vas deferens | वास डेरेंस |
| vascular bundle | संवहनी बंडल |
| vascular cylinder | संवहनी सिलिंडर |
| vascular plant | संवहनी पौधा |
| vascular ray | संवहनी किरण |

| English | Hindi |
|------------------------|--|
| vascular system | नाड़ी तंत्र |
| vascular tissue | संवहनी ऊतक |
| vasoconstriction | वाहिका संकीर्णन |
| vasodilation | वाहिका प्रसरण |
| vasopressin | वैसोप्रेसिन |
| vector | संचालन करना |
| vegetation | वनस्पति |
| vegetative propagation | वनस्पति प्रसार |
| vein | नस |
| vena cava | दिल में ऑक्सीजन रहित रक्त ले की नस |
| venereal disease | गुप्त रोग |
| venous flow | शिरापरक प्रवाह |
| ventral | उदर |
| ventral blood vessel | उदर रक्त वाहिका |
| ventral nerve cord | उदर तंत्रिका कॉर्ड |
| ventral root | उदर जड़ |
| ventricle | निलय, हृदय के निचले भाग का कोष |
| venule | बहुत छोटी की नस, विशेष रूप से एक केशिकाओं से रक्त का संग्रह करने वाली। |
| Venus's-flytrap | वीनस- मक्खियाँ को फंदा |
| vertebra(e) | रीड़ का जोड़ |
| vertebral column | रीड़ स्तंभ |
| vertebrate(s) | कशेरुकी (s) |
| vesicle | फफोला |
| vessel | पात्र |
| vestiges | अवशेष |
| vestigial | बाकी |
| vigorously | प्रबलता से |
| villi | विल्ली |
| villus | अंकुर |
| viral disease | विषाणुजनित रोग |
| virus | विषाणु |
| viscera | आंत |
| visceral muscle | आंत की पेशी |
| visible spectrum | दृश्यमान प्रतिबिम्ब |
| vital | महत्वपूर्ण |
| vital capacity | महत्वपूर्ण क्षमता |
| vitamin | विटामिन |
| viviparous | जीवित बच्चा जनने |

| English | Hindi |
|-----------------------|---|
| vocal cords | स्वर रुजु |
| volume | परिमाण |
| voluntary action | स्वैच्छिक कार्रवाई |
| voluntary behavior | स्वैच्छिक व्यवहार |
| voluntary muscle | स्वैच्छिक मांसपेशी |
| volunteer | स्वयंसेवक |
| | |
| W | |
| waiting | इंतज़ार कर रही |
| walnut | अखरोट |
| warm-blooded | जोशीला |
| warning coloration | एक बोल्ड, रंग के विशिष्ट पैटर्न शिकारियों के खिलाफ बचाव के रूप में कार्य करता है। |
| waste | बेकार |
| water potential | पानी संभावित |
| water vascular system | पानी नाड़ी तंत्र |
| water-cycle | जल चक्र |
| wavelength | तरंग दैर्घ्य |
| wax layer | मोम की परत |
| weasel | विभिन्न छोटे दुबला सक्रिय मांसाहारी स्तनधारियों |
| weather | मौसम |
| weathering | अपक्षय |
| web | वेब |
| weed killer | खरपतवार नाशक |
| wetland | आर्द्रभूमि |
| wet-mount slide | गिलास स्लाइड एक नमूना तरल पदार्थ की एक बूंद |
| whale | व्हेल |
| wheat | गेहूँ |
| white blood cell | सफेद रक्त कोशिका |
| white corpuscle | सफेद कणिका |
| white matter | सफेद पदार्थ |
| whole blood | पूरे रक्त |
| whooping cough | काली खांसी |
| wildlife conservation | वन्य जीवन की बातचीत |
| wilt | विल्ट, शक्ति खोने के लिए |
| wind break | हवा ब्रेक |
| wind erosion | हवा का कटाव |
| wind pollination | हवा परागण |
| windpipe | सांस की नली |

| English | Hindi |
|--------------------|--|
| wingspan | पंख फैलाव |
| within | अंदर |
| womb | कोख |
| woody fiber | वुडी फाइबर |
| woody stem | वुडी स्टेम |
| woolly mammoth | ऊनी विशाल |
| worker bee | कार्यकर्ता मधुमक्खी |
| worm | कीड़ा |
| X | |
| xanthophyll | जैन्थोफिल, पर्णपीत |
| xanthoproteic test | जैन्थोफिल जाँच |
| X-chromosome | X- गुणसूत्र |
| xylem | जाइलेम |
| Y | |
| Y-chromosome | Y- गुणसूत्र |
| yeast | खमीर |
| yeast fermentation | खमीर किणवन |
| yolk | जर्दी |
| yolk sac | अण्डे की जर्दी की थैली |
| Z | |
| zonation | जॉनशन, क्षेत्र या निश्चित किरदार के क्षेत्रों में वितरण। |
| zooplankton | जूप्लांक्टोन, प्राणीमन्दप्लवक |
| zygote | जयगोते, युग्मनज |